



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 15—नवम्बर 21, 2003 (कार्तिक 24, 1925)
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15—NOVEMBER 21, 2003 (KARTIKA 24, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

PART I—SECTION 4

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 नवम्बर 2003

(थल सेना शाखा)

सं 650, दिनांक 15 अक्टूबर, 2003--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

निर्यात सैन्य

विशेष सूची

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

उमा शंकर द्विवेदी (जेसी-459091ए), 15 फरवरी 2003।

दिवाकर

अवर सचिव

नौसेना शाखा

सं. 651, दिनांक 20 अक्टूबर 2003--राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एमएफ/1822/डीईएस/1599/यूएस(पी)/डी (एन-II)

दिनांक 12 नवम्बर 2002 के अधीन भारतीय नौसेना की विद्युत शाखा में सीधी भर्ती योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं :--

सब-ले. के रैंक में परखाधीन

सीधी भर्ती योजना

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म तथा कमीशन की तिथि

जश साउमेन (51775-एन) अल्पकालीन, 01 जनवरी 2001।

नेहरू विक्रम (51776-वाई) अल्पकालीन, 01 जनवरी 2001।

एन वर्धराज (51777-जेड) अल्पकालीन, 01 जनवरी 2001।

सिंह अजीतपाल (51778-ए) अल्पकालीन, 01 जनवरी 2001।

कुमार हितेश (51779-बी) अल्पकालीन, 01 जनवरी 2001।

जयदीप काश्यप

कमांडर

डीडीएमपीआर (आर एण्ड ओर)

थल सेना विभाग

सं. 652, दिनांक 14 अक्टूबर 2003--राष्ट्रपति खुश होकर निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

कवचित कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार उर्म कृष्णा पिल्लै एन (सं. 1074595एन अब जेसी-240105डब्ल्यू), 20 मई 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जाती है।)

दफादार हरपाल सिंह (सं. 1076793एक्स अब जेसी-240114एक्स), 12 अप्रैल 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2002 से दी जाती है।)

दफादार करम चन्द (सं. 1071107पी अब जेसी-240117एल), 02 अप्रैल 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाती है।)

दफादार ईश्वरी प्रसाद (सं. 1070843एफ अब जेसी-240120एल), 12 अप्रैल 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 दिसम्बर 2002 से दी जाती है।)

दफादार हरदीप सिंह (सं. 1070660एल अब जेसी-240121एन), 02 अप्रैल 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाती है।)

दफादार मोहन राम खिलेरी (सं. 1071165वाई अब जेसी-240125के), 02 अप्रैल 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाती है।)

दफादार मलूक सिंह (सं. 1070767ए अब जेसी-240126एम), 02 अप्रैल 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाती है।)

दफादार महेन्द्र कुमार सामल (सं. 1067895एम अब जेसी-240147एच), 22 अप्रैल 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है।)

दफादार अनिल सी एच डेका (सं. 1068168एफ अब जेसी-240148एल), 22 अप्रैल 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 नवम्बर 2002 से दी जाती है।)

दफादार मचाल सिंह गहरवाल (सं. 1066683पी अब जेसी-240156के), 25 अप्रैल 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 मार्च 2003 से दी जाती है।)

दफादार नील कान्त येसु नाथर (सं. 1070064वाई अब जेसी-240169एफ), 17 मई 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 मार्च 2003 से दी जाती है।)

दफादार राम सिंह (सं. 1063169ए अब जेसी-240183एन), 26 मई 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाती है।)

दफादार विहास सिंह (सं. 1065589वाई अब जेसी-240184डब्ल्यू), 03 मई 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाती है।)

दफादार महेन्द्र कुमार राजकुमारवत (सं. 1065918के अब जेसी-240185वाई), 17 मई 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 फरवरी 2003 से दी जाती है।)

दफादार हनुमान सिंह (सं. 1070483डब्ल्यू अब जेसी-240186एफ), 25 मई 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जाती है।)

दफादार हरजीत सिंह (सं. 1077380ए अब जेसी-240187के), 19 मई 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जाती है।)

दफादार नाथू सिंह (सं. 1065970एम अब जेसी-240188एम), 11 जून 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जाती है।)

दफादार मलप्पा पुजारी (सं. 1066825एफ अब जेसी-240189पी), 05 मई 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जाती है।)

दफादार कुलभूषण सिंह (सं. 1062766एच अब जेसी-240190के), 19 मई 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जाती है।)

दफादार जय भगवान (सं. 1066111एन अब जेसी-240191एम),
02 जून 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 06 अप्रैल 2003 से दी जाती है।)

दफादार जी सेन्तमराई कन्नन (सं. 1066869वाई अब
जेसी-240192पी), 21 मई 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जाती है।)

दफादार मजबुत सिंह सेंगर (सं. 1065946डब्ल्यू अब
जेसी-240194ए), 07 मई 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जाती है।)

दफादार चमन सिंह (सं. 1070440एफ अब जेसी-240195एच),
29 मई 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जाती है।)

दफादार अशोक कुमार (सं. 1064085वाई अब जेसी-240196एल),
29 मई 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जाती है।)

दफादार सुबाश चन्द्र करमकर (सं. 1068487एन अब
जेसी-240197एन), 24 मई 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जाती है।)

दफादार संभुराम नाथ (सं. 1065414डब्ल्यू अब जेसी-240199वाई),
04 जून 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जाती है।)

दफादार भागु राम जाट (सं. 1071169पी अब जेसी-240200एच),
30 जून 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 04 मई 2003 से दी जाती है।)

दफादार हंसराज (सं. 1064880वाई अब जेसी-240201एल),
30 जून 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 07 मई 2003 से दी जाती है।)

दफादार हरी राम (सं. 1062764एक्स अब जेसी-240202एन),
15 मई 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 मई 2003 से दी जाती है।)

दफादार चन्द्र प्रताप (सं. 1066197एक्स अब जेसी-240203डब्ल्यू),
30 मई 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 11 मई 2003 से दी जाती है।)

दफादार रणजीत सिंह (सं. 1063608ए अब जेसी-240204वाई),
30 मई 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 15 मई 2003 से दी जाती है।)

दफादार मालेवर श्री कृष्ण भाडुजी (सं. 1067742एच अब
जेसी-240205एफ), 17 जून 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 06 मार्च 2003 से दी जाती है।)

दफादार के गोवर्धनन (सं. 1066514एन अब जेसी-240207एम),
16 जून 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 18 मई 2003 से दी जाती है।)

दफादार चावरे गिरिधर तुलसी राम (सं. 1070815पी अब
जेसी-240211पी), 23 जून 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2003 से दी जाती है।)

दफादार गौरी प्रसाद (सं. 1068706के अब जेसी-240212एक्स),
02 जून 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2003 से दी जाती है।)

दफादार महेन्द्र सिंह वर्मा (सं. 1064005डब्ल्यू अब जेसी-240213ए),
01 जून 2003।

दफादार रविन्द्र कुमार मिश्रा (सं. 1067091एक्स अब
जेसी-240214एच), 01 जून 2003।

दफादार एम डी अन्वर पाशा (सं. 1069564के अब
जेसी-240216एन), 17 जून 2003।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2003 से दी जाती है।)

स्थायी रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार ओंकार सिंह इशर (जेसी-237312एक्स),
07 दिसम्बर 2000।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2000 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार श्याम मुरारी (जेसी-239318एक्स), 28 जुलाई
2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 27 सितम्बर 2002 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार करतार सिंह (जेसी-239194एच), 15 जुलाई 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार प्रहलाद (जेसी-239211एच), 19 जुलाई 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार बलदेव सिंह (जेसी-238958पी), 01 जनवरी 2003।

नायब रिसालदार रमेश चन्द (जेसी-239315के), 28 जुलाई 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार दिलबाग सिंह दहिया (जेसी-239439वाई), 17 जुलाई 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार रमा शंकर रे (जेसी-237241एफ), 21 मई 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 फरवरी 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार राजिन्दर सिंह (जेसी-239404एच), 19 जुलाई 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार ओम कुमार थापा (जेसी-239325एम), 01 अगस्त 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 मार्च 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार राज कुमार (जेसी-238358एच), 01 अप्रैल 2003।

नायब रिसालदार विजेन्द्र सिंह (जेसी-238389एम), 01 अप्रैल 2003।

नायब रिसालदार सम्पत कुमार कुल्हारी (जेसी-239016एल), 04 अगस्त 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार राजा राम यादव (जेसी-238762एफ), 30 जून 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 मई 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार भोलु राम (जेसी-238704एक्स), 17 जुलाई 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 मई 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार गया प्रसाद शर्मा (जेसी-237417एफ), 08 अगस्त 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार प्रभात चन्द्र बर्मन (जेसी-237885वाई), 29 जुलाई 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार विजय लाल (जेसी-237952एल), 11 अगस्त 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार राम किशन (जेसी-238295पी), 19 जुलाई 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार चित्तर सिंह राठौर (जेसी-238289एफ), 16 जुलाई 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार धर्मबीर सिंह (जेसी-239244एन), 15 जुलाई 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार दिलावर सिंह कौशल (जेसी-237729एक्स), 21 जुलाई 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जून 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार रोशन लाल शर्मा (जेसी-238018के), 15 जुलाई 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जून 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार बलवान सिंह (जेसी-238003एफ), 11 अगस्त 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जून 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार लल्लन प्रसाद विश्वकर्मा (जेसी-238522एक्स), 16 जुलाई 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जून 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार सोदान सिंह (जेसी-238642एच), 12 जुलाई 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार सुरजीत सिंह (जेसी-238473एम), 17 जुलाई 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार असरफ अली (जेसी-239193एल), 01 अगस्त 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार बलबीर सिंह (जेसी-238707एल), 01 अगस्त 2003।

नायब रिसालदार राम करण (जेसी-238319एन), 01 अगस्त 2003।

नायब रिसालदार मोहन सिंह (जेसी-238509ए), 01 अगस्त 2003।

नायब रिसालदार महिपाल सिंह चौहान (जेसी-238545एल), 07 अगस्त 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार मेहताब सिंह (जेसी-238635एम), 02 अगस्त 2003।*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2003 से दी जाती है।)

नायब रिसालदार मोहनन ई (जेसी-238698पी), 01 अगस्त 2003।

नायब रिसालदार रणजीत सिंह (जेसी-238744वाई), 01 अगस्त 2003।

नायब रिसालदार होन्नाप्पा के जी (जेसी-239333एम), 01 अगस्त 2003।

नायब रिसालदार इन्दर सिंह (जेसी-239433एल), 01 अगस्त 2003।

नायब रिसालदार उमेश प्रसाद श्रीवास्तवा (जेसी-239460एफ), 01 अगस्त 2003।

गार्ड्स ब्रिगेड

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रामनाथ सिंह (जेसी-402696एच), 01 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार राम किशन (जेसी-402634एच), 01 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार अनिल कुमार मेहता (जेसी-402696वाई), 12 मई 2003।*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-402715एच), 01 मई 2003।

नायब सूबेदार युधबीर सिंह स्लथीया (जेसी-402719वाई), 01 मई 2003।

नायब सूबेदार जगमोहन सिंह (जेसी-402697एल), 01 जुलाई 2003।

नायब सूबेदार श्री चंद (जेसी-402849एफ), 01 अगस्त 2003।

नायब सूबेदार छित्तर सिंह (जेसी-402860ए), 01 अगस्त 2003।

हवलदार रक्ष पाल शक्पा (सं. 13679583के अब जेसी-403376ए), 01 जनवरी 2003।

हवलदार सत्य पाल सिंह (सं. 13681400ए अब जेसी-403377एच), 03 अप्रैल 2003।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 मार्च 2003 से दी जाएगी।)

हवलदार संत राम (सं. 13686452एफ अब जेसी-403378एल), 21 मार्च 2003।

हवलदार पवित्रा मोहन पौंडा (सं. 13685458डब्ल्यू अब जेसी-403379एन), 22 मार्च 2003।

हवलदार कैलाश चंद्र (सं. 13681499एच अब जेसी-403380एल), 01 अप्रैल 2003।

हवलदार दिगम्बर सिंह (सं. 13681711पी अब जेसी-403381एल), 11 अप्रैल 2003।

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 13682976एल अब जेसी-403382एल), 26 मई 2003।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 अप्रैल 2003 से दी जाएगी।)

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 13688424एन अब जेसी-403383डब्ल्यू), 01 अगस्त 2003।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2003 से दी जाएगी।)

हवलदार देवे सागर सिंह (सं. 13685685डब्ल्यू अब जेसी-403384वाई), 08 मई 2003।

हवलदार विश्वा मित्र (सं. 136834461एक्स अब जेसी-403385एफ), 01 जून 2003।

हवलदार पुलिन चंद डेका (सं. 13683015डब्ल्यू अब जेसी-403386के), 10 जून 2003।

हवलदार श्यामवीर सिंह (सं. 13684739ए अब जेसी-403387एम), 01 अगस्त 2003।

मैकनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार उमेद सिंह (जेसी-418894एक्स), 20 मई 2003×।

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार नरिन्दर सिंह (जेसी-418728के), 23 मई 2003×।

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार तेवरे पांडुरंग आनंदा (जेसी-418704ए), 01 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार शेवपाल सिंह (जेसी-418946एच), 01 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार सुरिन्दर सिंह (जेसी-418943एन), 18 जून 2003×।

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अजित सिंह (जेसी-418802ए), 24 मई 2003×।

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार नेत्रा बहादुर थापा (जेसी-418940एफ), 09 जून 2003×।

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार दलबिर सिंह नैन (जेसी-419019एफ), 19 जुलाई 2003×।

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2003 से दी जायेगी)

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) रणजित सिंह (जेसी-418873एफ), 01 मई 2003।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) करन सिंह (सं. 14909505के अब जेसी-419741ए), 03 मई 2003×।

×(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जायेगी)

हवलदार (लिपिक) लाल सिंह (सं. 14909597एफ अब जेसी-419742एच), 08 मई 2003×।

×(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जायेगी)

जोस थोमस
अवर सचिव

सं. 653, दिनांक 16 अक्टूबर 2003---राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

वायु रक्षा तोपखाना कोर

नायब सूबेदार के पद में

आर एच एम शिव सिंह (सं. 14377425एन अब जेसी-298698वाई), 12 जुलाई 2003/01 जुलाई 2003×।

सी एच एम दिनकर धोंडिबा पांडरे (6915120एक्स अब जेसी-298699एफ), 21 जुलाई 2003/19 दिसम्बर 2001×।

हवलदार जॉन एम ए (14350554के अब जेसी-298700एल), 07 अप्रैल 2003/01 मार्च 2003×।

हवलदार प्रेम सिंह (14347115एन अब जेसी-298701एन), 03 जुलाई 2003/01 जून 2003×।

हवलदार कालीदास राय (सं. 14346365एच अब जेसी-298702डब्ल्यू), 28 जुलाई 2003/01 जून 2003×।

हवलदार अरोकिया दोस वाई (14386263पी अब जेसी-298703वाई), 24 जुलाई 2003/28 जून 2003×।

हवलदार गोपाल सिंह (14396391ए अब जेसी-298704एफ), 01 जुलाई 2003।

हवलदार राम प्रताप साह (सं. 14341712एम अब जेसी-298705के), 06 जुलाई 2003/01 जुलाई 2003×।

हवलदार साबाश पाडा नोटिया (सं. 14384700एल अब जेसी-298706एम), 14 जुलाई 2003/01 जुलाई 2003×।

बी एच एम राजागोपालन पी (सं. 14473378वाई अब जेसी-298707पी), 25 जुलाई 2003/01 जुलाई 2003×।

हवलदार उमाकांत अग्निहोत्री (सं. 14489327पी अब जेसी-298708एक्स), 01 जुलाई 2003।

हवलदार गुरमीत सिंह (सं. 14465516ए अब जेसी-298709ए), 09 जुलाई 2003/01 जुलाई 2003×।

आर एच एम प्रताप सिंह कैता (सं. 14371444एम अब जेसी-298710पी), 03 अगस्त 2003/01 जुलाई 2003×।

आर एच एम सतनाम सिंह (सं. 14378805वाई अब जेसी-298711एक्स), 01 अगस्त 2003।

बी एच एम पटेल कांतीलाल मगनभाई (14465104वाई अब जेसी-298712ए), 07 जुलाई 2003/01 जुलाई 2003×।

हवलदार भोजा राम यादव (सं. 14364974पी अब जेसी-298713एच), 26 जुलाई 2003/01 जुलाई 2003×।

बी एच एम मनोहर प्रसाद (सं. 14466852वाई अब जेसी-298714एल), 28 जुलाई 2003/01 जुलाई 2003×।

बी एच एम राज सिंह (सं. 14342728के अब जेसी-298715एन),
01 अगस्त 2003/02 जुलाई 2003×।

बी एच एम ओमवीर सिंह (सं. 14360982डब्ल्यू अब
जेसी-298716डब्ल्यू), 02 अगस्त 2003/08 जुलाई 2003×।

आर एच एम उधयराम सिंह (सं. 14340888एल अब
जेसी-298717वाई), 12 अगस्त 2003/13 जुलाई 2003×।

×(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

राजेन्द्र चतुर्वेदी
अवर सचिव

सं. 654, दिनांक 15 अक्टूबर 2003-- राष्ट्रपति, निम्नलिखित
पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना
सेना शिक्षा कोर
सूबेदार के रैंक में

पीए सूबेदार गणेश दत्त त्रिपाठी (जेसी-802601एल), 07 फरवरी
2003×।

पीए सूबेदार सुरेश चन्द्र (जेसी-802603डब्ल्यू), 08 मार्च 2003×।

पीए सूबेदार रतन जीत (जेसी-802604वाई), 11 फरवरी 2003×।

पीए सूबेदार खचेरा सिंह (जेसी-802605एफ), 22 फरवरी 2003×।

पीए सूबेदार अब्दुल अहमद (जेसी-802606के), 03 फरवरी 2003×।

पीए सूबेदार वीरेन्द्र कुमार बिंजोला (जेसी-802609एक्स), 21
फरवरी 2003×।

पीए सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-802610एम), 03 फरवरी 2003×।

पीए सूबेदार अशोक शर्मा (जेसी-802611पी), 05 फरवरी 2003×।

पीए सूबेदार सुनील कुमार (जेसी-802613ए), 25 फरवरी 2003×।

पीए सूबेदार शिव शंकर पाण्डेय (जेसी-802616एन), 24 फरवरी
2003×।

पीए सूबेदार बृजेश सिंह (जेसी-802622एफ), 08 फरवरी 2003×।

पीए सूबेदार महेश चन्द्र (जेसी-802633एन), 15 फरवरी 2003×।

पीए सूबेदार अरुण कुमार पाण्डेय (जेसी-802638एम), 24 फरवरी
2003×।

×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
05 जनवरी 2003 से दी जायेगी)

पीए सूबेदार धुबेन्द्र कुमार (जेसी-802639पी), 08 फरवरी 2003×।

पीए सूबेदार राकेश कुमार द्विवेदी (जेसी-802643एक्स), 12 मार्च
2003×।

पीए सूबेदार सुदर्शन सिंह (जेसी-802641एम), 07 मार्च 2003×।

पीए सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-802645एच), 06 मार्च 2003×।

पीए सूबेदार अनसार हुसैन (जेसी-802647एन), 08 मार्च 2003×।

पीए सूबेदार रामेश्वर प्रसाद (जेसी-802649वाई), 08 मार्च 2003×।

:(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

पीए सूबेदार नारायण सिंह चौहान (जेसी-802655एम), 01 मार्च
2003।

पीए सूबेदार डोरी लाल (जेसी-802656पी), 01 मार्च 2003।

पीए सूबेदार रघुपाल सिंह (जेसी-802659एच), 01 मार्च 2003।

पीए सूबेदार धनपाल सिंह (जेसी-802661ए), 01 मार्च 2003।

पीए सूबेदार/क्लर्क पान सिंह मेहता (जेसी-802857एन), 01 मार्च
2003।

पीए सूबेदार बिरेन्द्र सिंह (जेसी-802663एल), 05 अप्रैल 2003×

पीए सूबेदार मनवीर शर्मा (जेसी-802665डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2003।

=(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2003 से दी जाएगी)।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार श्याम सुन्दर (सं. 9509209एच अब जेसी-803408एल),
04 दिसम्बर 2002×

हवलदार राजेश सिंह तंवर (सं. 9509211ए अब जेसी-803409एन),
30 नवम्बर 2002×

हवलदार सुरेश पाल (सं. 9509212एच अब जेसी-803410एच),
17 नवम्बर 2002×

हवलदार मनरूप सिंह मान (सं. 9509213एल अब जेसी-
803411एल), 05 फरवरी 2003×

हवलदार अनिल कुमार पी के (सं. 9509251एफ अब
जेसी-803412एन), 14 दिसम्बर 2002×

हवलदार नरेश चन्द्र छिल्लर (सं. 9509216वाई अब
जेसी-803413डब्ल्यू), 20 नवम्बर 2002×

हवलदार प्रीतम सिंह (सं. 9509223पी अब जेसी-803414वाई),
03 दिसम्बर 2002×

हवलदार जसपाल सिंह (सं. 9509224एक्स अब जेसी-803415एफ),
01 दिसम्बर 2002×

हवलदार भगवत दयाल (सं. 9509225ए अब जेसी-803416के),
25 दिसम्बर 2002×।

हवलदार आजाद सिंह (सं. 9509227एल अब जेसी-803417एम),
14 नवम्बर 2002×

हवलदार राम बहादुर लिम्बू (सं. 9509228एन अब
जेसी-803418पी), 19 दिसम्बर 2002×

हवलदार सोहन वीर सिंह (सं. 9509230एल अब जेसी-803419एक्स), 14 दिसम्बर 2002×।

हवलदार अनन्त प्रकाश (सं. 9509231एन अब जेसी-803420एम), 04 दिसम्बर 2002×

हवलदार प्रदीप तिवारी (सं. 9509232डब्ल्यू अब जेसी-803421पी), 18 नवम्बर 2002×।

हवलदार जगताप रामदास आनंदराव (सं. 9509234एफ अब जेसी-803422एक्स), 21 नवम्बर 2002×।

हवलदार रमा शंकर गौतम (सं. 9509236एम अब जेसी-803424एच), 27 नवम्बर 2002×।

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 9509237पी अब जेसी-803425एल), 25 नवम्बर 2002×।

हवलदार सुबे सिंह (सं. 9509239ए अब जेसी-803426एन), 23 नवम्बर 2002×।

हवलदार सर्व जीत सिंह (सं. 9509241एक्स अब जेसी-803427डब्ल्यू), 03 फरवरी 2003×।

हवलदार मनोज कुमार पाण्डेय (सं. 9509245एन अब जेसी-803428वाई), 14 दिसम्बर 2002×।

हवलदार अखिलेश कुमार शिशौदिया (सं. 9509248एफ अब जेसी-803429एफ), 20 नवम्बर 2002×।

हवलदार रतन सिंह (सं. 9509250वाई.अब जेसी-803430डब्ल्यू), 12 नवम्बर 2002×।

हवलदार रमेश चन्द्र सिंह (सं. 9509252के अब जेसी-803431वाई), 03 जनवरी 2003×।

हवलदार राम कुमार (सं. 9509255एक्स अब जेसी-803432एफ), 19 दिसम्बर 2002×।

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 9509259एन अब जेसी-803434एम), 27 नवम्बर 2002×।

हवलदार इन्द्रजीतसिंह तेवतिया (सं. 9509264वाई अब जेसी-803435पी), 18 नवम्बर 2002×।

हवलदार सरत चन्द्र बेहेरा (सं. 9509265एफ अब जेसी-803436एक्स), 03 दिसम्बर 2002×।

हवलदार सुचेत सिंह (सं. 9509266के अब जेसी-803437ए), 20 नवम्बर 2002×।

हवलदार ओंकार सिंह (सं. 9509267एम अब जेसी-803438एच), 18 दिसम्बर 2002×।

हवलदार सतेन्द्र कुमार (सं. 9509269एक्स अब जेसी-803439एल), 22 नवम्बर 2002×।

हवलदार भीम सिंह तैवर (सं. 9509271पी अब जेसी-803440ए), 04 दिसम्बर 2002×।

हवलदार श्रीकृष्ण जाट (सं. 9509273ए अब जेसी-803441एच), 21 नवम्बर 2002×।

×(नायब सूबेदार के के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)

सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर

बी.एच.एम. बलि बहादुर थापा (सं. 5344484वाई) (जेसी-826122एच), 01 अगस्त 2003×।

बी.एच.एम. हेम बहादुर खंड (सं. 5750332एफ) (जेसी-826123एल), 01 अगस्त 2003।

विजय कपूर
प्रवर सचिव

सं. 655, दिनांक 17 अक्टूबर 2003--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

कोर आफ इंजिनियर

मद्रास इंजिनियर ग्रुप

नायब सूबेदार क्लर्क जी.डी./एस के रैंक में

हवलदार क्लर्क (जी.डी.) ब्रजेश कुमार राय (सं. 1383702के अब जेसी-307593वाई), 03 दिसम्बर 2002@

हवलदार क्लर्क (जी.डी.) आर रामदास (सं. 1383717एम अब जेसी-307594एफ), 18 नवम्बर 2002@

हवलदार क्लर्क (जी.डी.) प्रतिपाल सिंह नरवारिया (सं. 1382565के अब जेसी-307595के), 16 नवम्बर 2002@

हवलदार क्लर्क (एस) वि एलुमलय (सं. 15300496एल अब जेसी-307597पी), 09 नवम्बर 2002@

हवलदार क्लर्क (एस) सिमोन ए के (सं. 15300653एम अब जेसी-307611डब्ल्यू), 2 दिसम्बर 2002#

हवलदार क्लर्क (एस) अनिल कुमार वी के (सं. 15300736एक्स अब जेसी-307612वाई), 02 दिसम्बर 2002#

हवलदार क्लर्क (एस) के दीहलिंगा गवडा (सं. 15300930एम अब जेसी-307613एफ), 02 दिसम्बर 2002#

हवलदार क्लर्क (एस) संकर टी (सं. 15301176एच अब जेसी-307614के), 02 दिसम्बर 2002#

हवलदार क्लर्क (एस) सुरेश बाबू ए वी (सं. 15301247वाई अब जेसी-307615एम), 02 दिसम्बर 2002#

हवलदार क्लर्क (एस) वीनोदन पी पी (सं. 15301249के अब जेसी-307616पी), 02 दिसम्बर 2002#

हवलदार क्लर्क (एस) पम्पना राम बाबू (सं. 15301198एफ अब जेसी-307617एक्स), 02 दिसम्बर 2002#

हवलदार क्लर्क (एस) प्रेबाहरन वी (सं. 15301324एच अब जेसी-307618ए), 02 दिसम्बर 2002#

हवलदार क्लर्क (एस) सम्पत सिंह सिंशोदी (सं. 15303736एच अब जेसी-307619एच), 02 दिसम्बर 2002#

हवलदार क्लर्क (जी.डी.) बलराम सिंह चौहान (सं. 1383752पी अब जेसी-307621ए), 06 जनवरी 2003\$

हवलदार क्लर्क (जी.डी.) परिमल कुमार सरकार (सं. 1383923के अब जेसी-307622एच), 07 जनवरी 2003\$

हवलदार क्लर्क (जी.डी.) बशीर अहमद खान (सं. 1384239ए अब जेसी-307623एल), 03 मार्च 2003\$

हवलदार क्लर्क (जी.डी.) कोटम्बी गोरका धुलिस राम (सं. 1384519एन अब जेसी-307625डब्ल्यू), 10 फरवरी 2003\$

हवलदार क्लर्क (जी.डी.) मोती चंद राम (सं. 1384838ए अब जेसी-307645के), 03 फरवरी 2003##

हवलदार क्लर्क (जी.डी.) मुनीलाल यादव (सं. 1384847एफ अब जेसी-307646एम), 19 फरवरी 2003##

हवलदार क्लर्क (जी.डी.) ज्ञान सिंह (सं. 15300205ए अब जेसी-307647पी), 18 फरवरी 2003##

हवलदार क्लर्क (जी.डी.) सात्वोर सिंह अत्रि (सं. 15300208एन अब जेसी-307648एक्स), 01 फरवरी 2003##

हवलदार क्लर्क (जी.डी.) सैतोल कुमार बी (सं. 15300426एम अब जेसी-307649ए), 01 फरवरी 2003##

हवलदार क्लर्क (जी.डी.) भूप सिंह (सं. 15300510एम अब जेसी-307650पी), 18 फरवरी 2003##

हवलदार क्लर्क (जी.डी.) जी जी भास्करन (सं. 15300522पी अब जेसी-307622के), 03 मार्च 2003@@

हवलदार क्लर्क (जी.डी.) के क्रास्तुव राज (सं. 15300523के अब जेसी-307663एम), 04 मार्च 2003@@

हवलदार क्लर्क (जी.डी.) आर राबर्ट (सं. 15300524एम अब जेसी-307664पी), 05 मार्च 2003@@

हवलदार क्लर्क (जी.डी.) रंजीत सिंह (सं. 15300637पी अब जेसी-307665एक्स), 01 मार्च 2003@@

नायब सूबेदार एस के टी रैंक में

हवलदार एस के टी हरी सिंह यादव (सं. 1377465पी अब जेसी-307559वाई), 11 दिसम्बर 2002*

हवलदार एस के टी मांगेय राम (सं. 1377470ए अब जेसी-307583पी), 26 अक्टूबर 2002**

हवलदार एस के टी जगदीप सिंह महता शंकर (सं. 15307697एम अब जेसी-307425ए), 09 जनवरी 2003***

@ नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी।

2—324/GI/2003

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी।

\$ नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी।

@@ नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी।

* नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जायेगी।

** नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जायेगी।

*** नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2002 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार जी.डी. के रैंक में

हवलदार जी.डी. टी राजेंद्रन (सं. 1366347एफ अब जेसी-307628के), 20 मार्च 2003@

हवलदार जी.डी. ए गनेसन (सं. 1370107एफ अब जेसी-307629एम), 10 मार्च 2003@

हवलदार जी.डी. वी नरसिम्हलु (सं. 1370265डब्ल्यू अब जेसी-307630एफ), 03 फरवरी 2003@

हवलदार जी.डी. के मसिलामनी (सं. 1370257एक्स अब जेसी-307631के), 03 फरवरी 2003@

हवलदार जी.डी. आर सेकर (सं. 1372239एन अब जेसी-307632एम), 01 फरवरी 2003@

हवलदार जी.डी. कास्मी टी टी (सं. 1373531पी अब जेसी-307634एक्स), 20 फरवरी 2003@

हवलदार जी.डी. सी बाबू (सं. 15310495डब्ल्यू अब जेसी-307635ए), 01 फरवरी 2003@

हवलदार जी.डी. शाजी के (सं. 15311393एम अब जेसी-307636एच), 12 मार्च 2003@

हवलदार जी.डी. विजयन ए (सं. 1368658एन अब जेसी-307637एल), 01 फरवरी 2003@

हवलदार जी.डी.ए. अब्दुल वाहब (सं. 1370473एल अब जेसी-307638एन), 01 फरवरी 2003@

हवलदार जी.डी. सुधाकरन (सं. 1371115एम अब जेसी-307639डब्ल्यू), 22 मार्च 2003@

हवलदार जी.डी.जी. नारायणप्पा (सं. 1371828एक्स अब जेसी-307640एल), 01 फरवरी 2003@

हवलदार जी.डी. ए राजगोपाल (सं. 1372691एच अब जेसी-307641एन), 20 मार्च 2003@

- हवलदार जी.डी. बी वी सत्यनारायणा (सं. 1373189ए अब जेसी-307642डब्ल्यू), 05 फरवरी 2003@
- हवलदार जी.डी. दिलीप कुमार एस (सं. 1373839एच अब जेसी-307643वाई) 27 फरवरी 2003@
- हवलदार जी.डी. के. दुरैपांडियन (सं. 1374145पी अब जेसी-307644एफ), 01 फरवरी 2003@
- हवलदार जी.डी. पौलोस पी.टी (सं. 15315993एम अब जेसी-307651एक्स), 25 फरवरी 2003@
- हवलदार जी.डी. पन्नीर के (सं. 1374454एक्स अब जेसी-307652ए), 13 फरवरी 2003*
- हवलदार जी.डी. ए अरोकियासामी (सं. 1374940पी अब जेसी-307653एच), 10 मार्च 2003*
- हवलदार जी.डी. रत्नाकरन एम (सं. 1376588पी अब जेसी-307655एन), 16 अप्रैल 2003*
- हवलदार जी.डी. जी सेकर (सं. 1369496ए अब जेसी-307656डब्ल्यू), 24 मार्च 2003*
- हवलदार जी.डी. पी रवी (सं. 1369556के अब जेसी-307657वाई), 13 मार्च 2003*
- हवलदार जी.डी. सिवदासन (सं. 1370047एक्स अब जेसी-307658एफ), 13 मार्च 2003*
- हवलदार जी.डी. पाक्कियम ए (सं. 1370891ए अब जेसी-307659के), 18 मार्च 2003*
- हवलदार जी.डी. सिवानंदम् ए (सं. 1371198एच अब जेसी-307660वाई), 08 मार्च 2003*
- हवलदार जी.डी. के पांडी (सं. 1371564एफ अब जेसी-307661एफ), 12 मार्च 2003*
- हवलदार जी.डी. प्रभाकरन के (सं. 1372184पी अब जेसी-307667एच), 09 अप्रैल 2003#
- हवलदार जी.डी. पी अन्नादोरे (सं. 1372508पी अब जेसी-307668एल), 07 अप्रैल 2003#
- हवलदार जी.डी. के राजेंद्रा मूर्थी (सं. 1372831के अब जेसी-307669एन), 07 मई 2003#
- हवलदार जी.डी. सी देवराजन (सं. 1373402पी अब जेसी-307670एच), 05 अप्रैल 2003#
- हवलदार जी.डी. एन विद्यादरन मंडाडी (सं. 1373466ए अब जेसी-307671एल), 10 मई 2003#
- हवलदार जी.डी. ससीधरन सी (सं. 1373623एल अब जेसी-307672एन), 07 अप्रैल 2003#
- हवलदार जी.डी. रामाचंद्रान ए (सं. 1374004ए अब जेसी-307673डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2003#
- हवलदार जी.डी. के वी रवीचंद्रान (सं. 1374059के अब जेसी-307674वाई), 05 अप्रैल 2003#
- हवलदार जी.डी. एम मरियासंधनम (सं. 1374393एल अब जेसी-307675एफ), 10 अप्रैल 2003#
- हवलदार जी.डी. एम मुथुसामी (सं. 1374397एफ अब जेसी-307676के), 01 अप्रैल 2003#
- हवलदार जी.डी. मुरलीधरन एम (सं. 1376124एक्स अब जेसी-307677एम), 19 मई 2003#
- हवलदार जी.डी. गनेसन पी (सं. 1376675एच अब जेसी-307678पी), 11 अप्रैल 2003#
- हवलदार जी.डी. सुकलयाना सुंदरम (सं. 1377218एफ अब जेसी-307679एक्स), 05 अप्रैल 2003#
- हवलदार जी.डी. राजशेखरा (सं. 1377253के अब जेसी-307680एम), 05 अप्रैल 2003#
- हवलदार जी.डी. चंद्रप्या सी कुलकर्णी (सं. 1377282वाई अब जेसी-307681पी), 05 अप्रैल 2003#
- हवलदार जी.डी. एम ईकाम्बरम (सं. 1370164एच अब जेसी-307683ए), 01 अप्रैल 2003#
- हवलदार जी.डी. के मनोगरन (सं. 1371032एफ अब जेसी-307684एच), 05 अप्रैल 2003#
- हवलदार जी.डी. वी जोसेफ (सं. 1371228पी अब जेसी-307685एल), 24 अप्रैल 2003#
- हवलदार जी.डी. डी ईल्लप्पन (सं. 1371678एम अब जेसी-307686एन), 07 अप्रैल 2003#
- हवलदार जी.डी. थम्पी टी के (सं. 1371777पी अब जेसी-307687डब्ल्यू), 05 अप्रैल 2003#
- हवलदार जी.डी. एम सहायाराज (सं. 1371848एल अब जेसी-307688वाई), 04 अप्रैल 2003#
- हवलदार जी.डी. राजन पी के (सं. 1372318एच अब जेसी-307689एफ), 21 मई 2003#
- हवलदार जी.डी. एस जगनाथन (सं. 1372333एक्स अब जेसी-307690डब्ल्यू), 08 अप्रैल 2003#
- हवलदार जी.डी. एस राजीमोन (सं. 15313436पी अब जेसी-307691वाई), 04 अप्रैल 2003##
- हवलदार जी.डी. एल जयसीलन (सं. 1362523डब्ल्यू अब जेसी-307696एक्स), 09 मई 2003#
- हवलदार जी.डी. के मेहेंदिरन (सं. 1369916पी अब जेसी-307698एच), 12 मई 2003#
- हवलदार जी.डी. देवरापल्लि मैसय्या (सं. 1366918पी अब जेसी-307699एल), 02 मई 2003#

हवलदार जी.डी. रामदास सी पी (सं. 1372859के अब जेसी-307701एक्स), 12 मई 2003\$

हवलदार जी.डी. बमीदी मोहना राव (सं. 1373065एल अब जेसी-307702ए), 23 मई 2003\$

हवलदार जी.डी. एम कन्नन (सं. 1369583एन अब जेसी-307703एच), 01 मई 2003\$

हवलदार जी.डी. जार्ज के अब्राहाम (सं. 1371695एम अब जेसी-307704एल), 04 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. महबूब बाबू सम्पगोत्र (सं. 1372855एन अब जेसी-307705एन), 01 मई 2003\$

हवलदार जी.डी. जयप्रसाद एन (सं. 15308882एम अब जेसी-307706डब्ल्यू), 06 मई 2003\$

हवलदार जी.डी. बी ग्यानाप्रकाशम (सं. 1374594के अब जेसी-307707वाई), 06 मई 2003\$

हवलदार जी.डी. जी सुभाजन (सं. 1370730एक्स अब जेसी-307708एफ), 02 मई 2003\$

हवलदार जी.डी. रामगोडप्पा गुरुलिंगप्पा बिस्माल (सं. 1373000एक्स अब जेसी-307709के), 26 मई 2003\$

हवलदार जी.डी. एन ईका-ज- (सं. 1373243एच अब जेसी-307710वाई), 06 मई 2003\$

हवलदार जी.डी. जी मार्का बंधू (सं. 1371769डब्ल्यू अब जेसी-307711एफ), 01 मई 2003\$

हवलदार जी.डी. के रामर (सं. 1369710एक्स अब जेसी-307712के), 01 मई 2003\$

हवलदार जी.डी. एस मूर्थी (सं. 1370154वाई अब जेसी-307713एम), 09 मई 2003\$

हवलदार जी.डी. दसरधान यु (सं. 1371561एन अब जेसी-307729एक्स), 01 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. एस दीनाकरन (सं. 1371764एक्स अब जेसी-307730एम), 10 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. विजयन ए एम (सं. 1372313के अब जेसी-307731पी), 02 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. सुरेश सम्बावरु (सं. 1374042डब्ल्यू अब जेसी-307732एक्स), 01 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. जोसेफ के पां (सं. 1374548पी अब जेसी-307733ए), 01 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. ए जगदीश (सं. 1375496डब्ल्यू अब जेसी-307734एच), 02 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. अंधोनी के वी (सं. 1371219एन अब जेसी-307735एल), 01 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. लूथी नातन (सं. 1371807एफ अब जेसी-307736एन), 01 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. ए जोसेफ (सं. 1372265पी अब जेसी-307737डब्ल्यू), 01 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. एस गोपाल (सं. 1372428एक्स अब जेसी-307738वाई), 01 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. एन मोहन (सं. 1369064एल अब जेसी-307739एफ), 02 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. अनिल कुमार वी के (सं. 15305680ए अब जेसी-307740डब्ल्यू), 02 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. एम सी थंकवेलू (सं. 1369945के अब जेसी-307741वाई), 01 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. राजन सी (सं. 15309881डब्ल्यू अब जेसी-307742एफ), 23 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. एस वेलायुधम (सं. 15305252एफ अब जेसी-307743के), 02 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. पिउस सी (सं. 1372554के अब जेसी-307744एम), 01 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. मनोज पी ए (सं. 1376561एक्स अब जेसी-307745पी), 01 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. जार्ज पी डी (सं. 1375975एक्स अब जेसी-307746एक्स), 20 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. कुमार लश्मन (सं. 1373674पी अब जेसी-307747ए), 06 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. राधाक्रिशन टी ई (सं. 1374178ए अब जेसी-307748एच), 02 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. थोमस टी सी (सं. 1373344डब्ल्यू अब जेसी-307750ए), 02 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. ए सेल्वाराज (सं. 1368618एम अब जेसी-307757के), 02 जून 2003\$

हवलदार जी.डी. एम एन नंदगोपाल (सं. 1370028एम अब जेसी-307760के), 01 जुलाई 2003**

हवलदार जी.डी. थोमस बेर्नाड (सं. 1374276ए अब जेसी-307761एम), 01 जुलाई 2003\$

हवलदार जी.डी. विलास काम्बले (सं. 1370005एल अब जेसी-307762पी), 01 जुलाई 2003\$

हवलदार जी.डी. बी बालसुब्रामनियम (सं. 1370341एक्स अब जेसी-307763एक्स), 01 जुलाई 2003\$

हवलदार जी.डी. जार्ज जान (सं. 1370344एल अब जेसी-307764ए), 02 जुलाई 2003\$

हवलदार जी.डी. एम सारंगपाणी (सं. 1371004पी अब जेसी-307765एच), 01 जुलाई 2003&

हवलदार जी.डी. राजप्पन एन (सं. 1371207वाई अब जेसी-307766एल), 01 जुलाई 2003&

हवलदार जी.डी. जी महेन्द्रन (सं. 1371265एच अब जेसी-307767एन), 03 जुलाई 2003&

हवलदार जी.डी. के थीरुनावुक्करसु (सं. 1371554एक्स अब जेसी-307768डब्ल्यू), 03 जुलाई 2003&

हवलदार जी.डी. एस सेकर (सं. 1371890के अब जेसी-307769वाई), 02 जुलाई 2003&

हवलदार जी.डी. स्विटो फ्रांसिस (सं. 15313542एन अब जेसी-307774के), 14 जुलाई 2003\$\$

हवलदार जी.डी. प्रेमकुमार राय (सं. 15312488वाई अब जेसी-307775एम), 14 जुलाई 2003&&

हवलदार जी.डी. शाफीउल्ला (सं. 1370166एन अब जेसी-307590एल), 01 नवम्बर 2002+

हवलदार जी.डी. वी सेकरन (सं. 1371351के अब जेसी-307604ए), 02 दिसम्बर 2002++

हवलदार जी.डी. पी काथवारायन (सं. 1380948एक्स अब जेसी-307620एक्स), 03 दिसम्बर 2002+++

हवलदार जी.डी. राजेन्द्रा कुमार सी (सं. 1373064एच अब जेसी-307626वाई), 01 फरवरी 2003***

हवलदार जी.डी. मुरलीधरन के (सं. 1376981एक्स अब जेसी-307325पी), 01 जुलाई 2003@@@

@नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी।

@ @नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी।

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी।

#नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी।

##नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2002 से दी जायेगी।

\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जायेगी।

%नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2003 से दी जायेगी।

&नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2003 से दी जायेगी।

**नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2002 से दी जायेगी।

%%नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी।

\$\$नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2002 से दी जायेगी।

&&नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 जनवरी 2003 से दी जायेगी।

+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी।

++नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी।

+++नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी।

***नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2002 से दी जायेगी।

@@@नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2001 से दी जायेगी।

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार सुरेश कुमार (नं. 1463883एल अब जेसी 328852के), 26 मई 2003।*

हवलदार रमेश चन्द सिंह (नं. 1466900एन अब जेसी 328853एम), 26 मई 2003।*

हवलदार बिरबल सिंह (नं. 1464751एम अब जेसी 328854पी), 27 मई 2003।*

हवलदार नरिन्दर सिंह (नं. 1463450डब्ल्यू अब जेसी 328855एक्स), 27 मई 2003।*

हवलदार मिथलेश कुमार झा (नं. 1464014एल अब जेसी 328856ए), 28 मई 2003।*

हवलदार महेश सिंह (नं. 1466201एच अब जेसी 328857एच), 27 मई 2003।

हवलदार राम लखन सिंह (नं. 1466215एच अब जेसी 328858एल), 26 मई 2003।*

हवलदार कृष्ण कान्त बोरा (नं. 1463493एल अब जेसी 328859एन), 28 मई 2003।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003।)

हवलदार हरीश सिंह (नं. 1466290एम अब जेसी 328860एच), 13 जून 2003।#

हवलदार शिव सिंह (नं. 1466391ए अब जेसी 328861एल),
13 जून 2003।#

हवलदार दिलावर सिंह (नं. 1466420के अब जेसी 328862एन),
14 जून 2003।#

हवलदार गोविन्द प्रसाद (नं. 1466598ए अब जेसी 328863डब्ल्यू),
13 जून 2003।#

हवलदार रणजीत सिंह (नं. 1466670एल अब जेसी 328864वाई),
13 जून 2003।#

हवलदार चन्द्र सिंह (नं. 1466672डब्ल्यू अब जेसी 328865एफ),
23 जून 2003।#

हवलदार सुरेन्द्र प्रसाद (नं. 1463007एच अब जेसी 328866के), 09
जून 2003।#

हवलदार गणेश प्रसाद जायसवाल (नं. 1467982एन अब जेसी
328867एम), 14 जून 2003।#

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2003।)

नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

हवलदार कृष्ण कुमार यादव (नं. 1470639डब्ल्यू अब जेसी
328868पी), 10 जून 2003।\$

हवलदार महेश सिंह शाक्य (नं. 1470652ए अब जेसी 328869एक्स),
12 जून 2003।\$

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2003।)

नायब सूबेदार (सर्वे) के रैंक में

हवलदार इन्द्रजित चौधरी (नं. 1475743एन अब जेसी 328870एम),
18 जून 2003।@

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2003।)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार देवदत्त गोस्वामी (नं. 1467833ए अब जेसी 328826एच),
19 नवम्बर 2003।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002।)

हवलदार गुरमीत सिंह (नं. 1466025डब्ल्यू अब जेसी 328827एल),
20 मार्च 2003।@

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2003।)

हवलदार बलविन्दर सिंह (नं. 1462929वाई अब जेसी 328828एन),
22 मई 2003।#

हवलदार अजित कुमार सिंह (नं. 1463640एच अब जेसी
328829डब्ल्यू), 24 मई 2003।#

हवलदार बिर बहादुर सिंह (नं. 1464651एफ अब जेसी 328830एल),
23 मई 2003।#

हवलदार हम बहादुर थापा (नं. 1403692पी अब जेसी 328831एन),
23 मई 2003।#

हवलदार नोरेन चंद्र बरुआ (नं. 1466294ए अब जेसी 328832डब्ल्यू),
22 मई 2003।#

हवलदार ताजवर सिंह (नं. 1464074ए अब जेसी 328833वाई),
01 जून 2003।#

हवलदार दलीप सिंह (नं. 1466117एच अब जेसी 328834एफ),
24 मई 2003।#

हवलदार गोविन्द सिंह (नं. 1466147ए अब जेसी 328835के),
24 मई 2003।#

हवलदार इन्दर सिंह (नं. 1483396पी अब जेसी 328836एम),
21 मई 2003।#

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2003।)

नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

हवलदार सुरेश कुमार कौशिक (नं. 1470404के अब जेसी
328837पी), 09 अप्रैल 2003।\$

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2003।)

हवलदार रोशन लाल (नं. 1470412एच अब जेसी 328838एक्स),
26 अप्रैल 2003।%

हवलदार ओमपाल सिंह चौहान (नं. 1470495वाई अब जेसी
328839ए), 16 अप्रैल 2003।%

हवलदार गोविन्द सिंह सौन्तियाल (नं. 1470513डब्ल्यू अब जेसी
328840पी), 25 अप्रैल 2003।%

हवलदार राधा कृष्ण नायर सी.के. (नं. 1470534एम अब जेसी
328841एक्स), 23 अप्रैल 2003।%

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003।)

हवलदार कमलेश सिंह यादव (नं. 1470535पी अब जेसी 328842ए),
15 मई 2003।&

हवलदार कल्याण शंकर मिश्रा (नं. 1470537ए अब जेसी
328843एच), 09 मई 2003।&

हवलदार सम नाथ (नं. 1470553एक्स अब जेसी 328844एल), 13
मई 2003।&

हवलदार छत्रपाल (नं. 1470552पी अब जेसी 328845एन), 19 मई
2003।&

हवलदार राम सिंह पुनिया (नं. 1470615एम अब जेसी
328846डब्ल्यू), 09 मई 2003।&

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2003।)

हवलदार राजेन्द्र सिंह बिष्ट (नं. 1470668एल अब जेसी 328847वाई),
05 जून 2003।**

हवलदार कन्हई लाल (नं. 1470693के अब जेसी 328848एफ), 05
जून 2003।**

हवलदार ओमकार दत्त शर्मा (नं. 1470692एफ अब जेसी 328849के),
09 जून 2003।**

**(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2003।)

नायब सूबेदार (सर्वे) के रैंक में

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (नं. 1470999एम अब जेसी 328850वाई), 23
अप्रैल 2003।@@

हवलदार रविन्द्र नाथ सिंह (नं. 1475181एफ अब जेसी 328851एफ),
01 मई 2003।@@

@@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003।)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार प्रदीपन नन्दुकान्दि (नं. 1467966डब्ल्यू अब जेसी
328816वाई), 27 मार्च 2003।*

हवलदार प्रताप सिंह (नं. 1463700डब्ल्यू अब जेसी 328817एफ),
29 मार्च 2003।*

हवलदार रविन्द्र नाथ सिंह (नं. 1464004एफ अब जेसी 328818के),
25 मार्च 2003।*

हवलदार मनोहर सिंह (नं. 1465094ए अब जेसी 328819एम),
27 मार्च 2003।*

हवलदार प्रेम सिंह (नं. 1466115एक्स अब जेसी 328820एफ),
24 मार्च 2003।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2003।)

नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

हवलदार धरम पाल सिंह (नं. 1470511एल अब जेसी 328821के),
16 अप्रैल 2003।\$

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003।)

नायब सूबेदार (सर्वे) के रैंक में

हवलदार शिवजी सिंह (नं. 1468433ए अब जेसी 328822एम),
21 मार्च 2003।&

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2003।)

हवलदार प्रभु नाथ झा (नं. 1472392वाई अब जेसी 328823पी),
16 अप्रैल 2003।@

हवलदार नरेन्द्र पाल (नं. 1472754पी अब जेसी 328824एक्स),
16 अप्रैल 2003।@

हवलदार राजेन्द्र सिंह (नं. 1464785ए अब जेसी 328825ए),
16 अप्रैल 2003।@

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003।)

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार (जी डी) बलकार सिंह (सं. 1553454एन अब जेसी
349467एन), 19 जनवरी 2003।

हवलदार (जी डी) भजन सिंह (सं. 1553763डब्ल्यू अब जेसी
349468डब्ल्यू), 20 जनवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार (जी डी) बाली मोहम्मद (सं. 1553122के अब जेसी
349473एफ), 11 मई 2003।

हवलदार (जी डी) कल्लू कुरेशी (सं. 1553136के अब जेसी
349474के), 17 मई 2003।

हवलदार (जी डी) शिवाजी पांडुरंग तोडकर (सं. 1553409एफ अब
जेसी 349475एम), 17 मई 2003।

हवलदार (जी डी) जाधव प्रकाश पांडुरंग (सं. 1554502पी अब जेसी
349476पी), 12 मई 2003।

हवलदार (जी डी) चव्हाण दत्ताजी गोविंद (सं. 1554838पी अब
जेसी 349477एक्स), 17 मई 2003।

हवलदार (जी डी) जमेश चन्द्र त्रिपाठी (सं. 1554849एफ अब जेसी
349478ए), 12 मई 2003।

हवलदार (जी डी) नूर खान (सं. 1554958एन अब जेसी 349479एच),
10 मई 2003।

हवलदार (जी डी) उस्मान अनसारी (सं. 1555345ए अब जेसी
349480एक्स), 12 मई 2003।

हवलदार (जी डी) पवार गोरखनाथ एकनाथ (सं. 1555697एक्स अब
जेसी 349481ए), 19 मई 2003।

हवलदार (जी डी) जगीर (सं. 1566932एल अब जेसी 349482एच),
10 मई 2003।

हवलदार (जी डी) जगीर सिंह (सं. 1567212डब्ल्यू अब जेसी
349483एल), 19 मई 2003।

हवलदार (जी डी) माने अशोक दत्त (सं. 1556844एफ अब जेसी
349484एन), 19 मई 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2003 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क जी डी) रूप लाल (सं. 1567165के अब जेसी-349469वाई), 13 मई 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क जी डी) मकखन सिंह (सं. 1552982एल अब जेसी-349470एम), 30 मई 2003।

हवलदार (क्लर्क जी डी) सुरजीत सिंह (सं. 1553623के अब जेसी-349471डब्ल्यू), 13 मई 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क जी डी) खेम सिंह (सं. 1567556पी अब जेसी-349472वाई), 27 मई 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क जी डी) हरेंद्र सिंह (सं. 1568486एन अब जेसी-349485 डब्ल्यू), 05 जून 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2003 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क जी डी) कुलदीप सिंह (सं. 1549378पी अब जेसी-349440डब्ल्यू), 22 मार्च 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क जी डी) चक्काण राजाराम हरीबा (सं. 1570593एन अब जेसी-349447एच), 06 फरवरी 2003।

हवलदार (क्लर्क जी डी) पवार जंकर लक्ष्मण (सं. 1570801एक्स अब जेसी-349448एच), 26 फरवरी 2003।

हवलदार (क्लर्क जी डी) के सुरेश कुमार (सं. 1570822एन अब जेसी-349449एल), 07 मार्च 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क जी डी) हरेंद्र सिंह (सं. 1554182एल अब जेसी-349452एल), 28 अप्रैल 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क जी डी) राकेश कुमार तोमर (सं. 1568006वाई अब जेसी-349456एफ), 30 अप्रैल 2003।

हवलदार (क्लर्क जी डी) भोंग दिलीप कुमार बाजीराव (सं. 1555348एन अब जेसी-349457के), 24 अप्रैल 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क जी डी) राजाराम सिंह (सं. 1569100पी अब जेसी-349464ए), 15 मई 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार (एस के टी) कुलदीप सिंह (सं. 1568469एन अब जेसी-349442एफ), 12 मार्च 2003।

हवलदार (एस के टी) रघुवीर सिंह यादव (सं. 1567866ए अब जेसी-349443के), 24 फरवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी।)

हवलदार (एस के टी) हरी वल्लभ (सं. 1570799एल अब जेसी-349444एम), 22 मार्च 2003।

हवलदार (एस के टी) अरदलकर दशरथ गणपतराव (सं. 1570810वाई अब जेसी-349445पी), 01 मार्च 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार (जी डी) योगेश वाटवे (सं. 15562189ए अब जेसी-349439एफ); 13 मार्च 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2002 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) जोगिंदर सिंह (सं. 1552671एक्स अब जेसी-349441वाई), 26 जनवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) कमलेश कुमार (सं. 1554759ए अब जेसी-349446एक्स), 14 फरवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) सदिक खान (सं. 1557370एक्स अब जेसी-349450ए), 27 मार्च 2003।

हवलदार (जी डी) शुभ राम (सं. 1555813पी अब जेसी-349451एच), 03 अप्रैल 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) अजैब सिंह (सं. 1552965एल अब जेसी-349453एन), 18 मार्च 2003।

हवलदार (जी डी) फरकटे बाबासाहेब दयानंदेव (सं. 1553311एन अब जेसी-349454डब्ल्यू), 17 मार्च 2003।

हवलदार (जी डी) राम चंद्र लाल (सं. 1553776एन अब जेसी-349455वाई), 24 अप्रैल 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) शेलार नारायण गोपाल (सं. 1553907एन अब जेसी-349458एम), 22 अप्रैल 2003।

हवलदार (जी डी) रूप सिंह (सं. 1554259एच अब जेसी-349459पी), 04 मई 2003।

हवलदार (जी डी) प्रेम सिंह (सं. 1554310एक्स अब जेसी-349460के), 29 अप्रैल 2003।

हवलदार (जी डी) हसन राजा खान (सं. 1554529एम अब जेसी-349461एम), 06 मई 2003।

हवलदार (जी डी) कराले मलहारी मारुती (सं. 1554893एल अब जेसी-349462पी), 27 अप्रैल 2003।

हवलदार (जी डी) राम ध्यान ठाकुर (सं. 1555143वाई अब जेसी-349463एक्स), 22 अप्रैल 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क जी डी) उन्नी कृष्णा पिल्लै के जी (सं. 1569848डब्ल्यू अब जेसी-349419एन), 21 फरवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क जी डी) वडुडुल है खान (सं. 1570590ए अब जेसी-349426के), 25 फरवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार (एस के टी) भभीषण सिंह (सं. 1572184वाई अब जेसी-349423डब्ल्यू), 24 फरवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार (जी डी) पवार शंकर रघुनाथ (सं. 1556843वाई अब जेसी-349418एल), 06 फरवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) गुरमेल सिंह (सं. 1552094डब्ल्यू अब जेसी-349420एच), 18 दिसम्बर 2002।

हवलदार (जी डी) रणजीत सिंह (सं. 1557250वाई अब जेसी-349421एल), 13 दिसम्बर 2002।

हवलदार (जी डी) रशीद खान (सं. 1553732डब्ल्यू अब जेसी-349422एन), 18 दिसम्बर 2002।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) बलवन्त सिंह (सं. 1552589एच अब जेसी-349424वाई), 10 फरवरी 2003।

हवलदार (जी डी) बौडीराम शिवराम उतेकर (सं. 1557224एक्स अब जेसी-349425एफ), 14 फरवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) हरभजन सिंह (सं. 1552174एन अब जेसी-349427एम), 13 फरवरी 2003।

हवलदार (जी डी) हसबे जनार्दन तुकाराम (सं. 1552270एच अब जेसी-349428पी), 09 फरवरी 2003।

हवलदार (जी डी) काबल सिंह (सं. 1551856एम अब जेसी-349429एक्स), 15 फरवरी 2003।

हवलदार (जी डी) जार्जलाल (सं. 1554262एच अब जेसी-349430एम), 18 फरवरी 2003।

हवलदार (जी डी) गंगा सागर (सं. 1554311ए अब जेसी-349431पी), 21 फरवरी 2003।

हवलदार (जी डी) भरत आत्माराम येरूणकर (सं. 1553534एल अब जेसी-349432एक्स), 11 फरवरी 2003।

हवलदार (जी डी) मोहम्मद इसलाम (सं. 1553536डब्ल्यू अब जेसी-349433ए), 27 फरवरी 2003।

हवलदार (जी डी) अल्लाउद्दीन (सं. 1555369के अब जेसी-349434एच), 18 फरवरी 2003।

हवलदार (जी डी) अमर सिंह (सं. 1557395के अब जेसी-349435एल), 15 फरवरी 2003।

हवलदार (जी डी) होंडे नीलकंठ बंशीधर (सं. 1557411डब्ल्यू अब जेसी-349436एन), 11 फरवरी 2003।

हवलदार (जी डी) अशिन खान (सं. 1557823एक्स अब जेसी-349437डब्ल्यू), 08 मार्च 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) राधे सिंह (सं. 1552484वाई अब जेसी-349438वाई), 19 मार्च 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क जी डी) आर नाग राजन (सं. 1568281वाई अब जेसी-349493पी), 23 जून 2003।

हवलदार (क्लर्क जी डी) रवी भूषण (सं. 1553229वाई अब जेसी-349494एक्स), 07 जुलाई 2003।

हवलदार (क्लर्क जी डी) दुष्यन्त कुमार (सं. 1569229एच अब जेसी-349495ए), 07 जुलाई 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2003 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार (जी डी) राम सरण (सं. 1556337एन अब जेसी-349486वाई), 06 जून 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 नवम्बर 2002 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) अब्दुल सत्तार (सं. 1555474ए अब जेसी-349487एफ), 12 मई 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) पवार राजेंद्र मारुति (सं. 1555983वाई अब जेसी-349488के), 13 जून 2003।

हवलदार (जी डी) अब्दुल मजीद अनंसारी (सं. 1551716ए अब जेसी-349489एम), 18 जून 2003।

हवलदार (जी डी) दीन मोहम्मद (सं. 1553496ए अब जेसी-349490एफ), 26 जून 2003।

हवलदार (जी डी) राज कुमार शर्मा (सं. 1556034वाई अब जेसी-349491के), 16 जून 2003।

हवलदार (जी डी) मदने अंकुश नामदेव (सं. 1556701एफ अब जेसी-349492एम), 14 जून 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जायेगी।)

मद्रास इंजिनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर जी.डी. के मूल रैंक में

सूबेदार (जी डी) दवशना मूर्ती (जेसी-197009एल), 28 अप्रैल 2003।

सूबेदार (जी डी) सी पी करियप्पा (जेसी-197061एन), 01 अप्रैल 2003।

सूबेदार (जी डी) शैक अब्दुल्ला हैदरलिशा (जेसी-191243एल), 24 अप्रैल 2003।

सूबेदार जी. डी. के मूल रैंक में

नायब सूबेदार (जी डी) ए वी फणिंद्रा (जेसी-305633डब्ल्यू), 01 मई 2000।

नायब सूबेदार (जी डी) पी सुंदर राज (जेसी-306953एक्स), 09 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) नीलकंठ टी के (जेसी-306484ए), 01 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) देवन एन (जेसी-306485एच), 01 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) दासरी वैकय्या (जेसी-306486एल), 01 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) एच स्टैंडलीं रोजारिओ (जेसी-306487एच), 05 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) एस. कमलासनन (जेसी-306488डब्ल्यू), 01 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) आर. अरुमै सेल्वम (जेसी-306534ए), 03 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) मरपुवीरा वैकट रमना (जेसी-306564एक्स), 01 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) राजन पिल्लै (जेसी-306565ए), 19 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) गोपाल सरवाड (जेसी-306566एच), 31 मार्च 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) राजेंद्रन पी (जेसी-306848एफ), 07 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) एम वेलमुरुगन (जेसी-306568एच), 24 मार्च 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) जी इश्वर रेड्डी (जेसी-306569डब्ल्यू), 11 मार्च 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) मारियप्पन पी (जेसी-306572एन), 12 मार्च 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) उदय कुमार वी (जेसी-306573वाई), 10 मार्च 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) मुत्तप्पा टी एन (जेसी-306575के), 11 मार्च 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) मुत्तुरक्कन (जेसी-306586एन), 01 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) ओ मुरुगेसन (जेसी-306587वाई), 01 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) ब्रह्मानंदम् (जेसी-306590वाई), 01 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) दिलीप कुमार ओ सी (जेसी-306591एफ), 01 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) वी वेंकटेश्वरा राव (जेसी-306592के), 01 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) रवींद्र नारय बी (जेसी-306593एम), 02 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) नारायण वेनुधा परम्बथ (जेसी-306594पी), 05 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) प्रेमराजन एलहुथुपल्लि पीरम्बल (जेसी-306595एक्स), 02 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) आर सेकर (जेसी-306596ए), 01 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) भास्करन एम (जेसी-306598एल), 02 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) सोमप्पा पट्टना सेट्टी (जेसी-306600के), 21 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) वी राजेंद्रन (जेसी-306602एच), 01 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) मोहनन ए (जेसी-306609एम), 02 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) वी कासी (जेसी-306610एफ), 17 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) के राजगोपाल (जेसी-306612एम), 09 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) जनार्दनन के. (जेसी-306615ए), 01 मई 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) कुमार एन (जेसी-306618एन), 27 मई 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) वी क्रिष्णा (जेसी-306620एल), 01 मई 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) केशवन एम (जेसी-306628एक्स), 01 मई 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) राजन के (जेसी-306629ए), 01 मई 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) यशोधरन के एन (जेसी-306630पी), 01 मई 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) आर अरुण (जेसी-306631एक्स), 02 जून 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) जान प्रकाशम एस (जेसी-306632ए), 02 जून 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) बालचंद्रन एन (जेसी-306633एच), 01 जून 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) गोपाल सी (जेसी-306634एच), 02 जून 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) कालय्या सीपी (जेसी-306635एन), 02 जून 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) राजा गोपालन ई (जेसी-306637वाई), 02 जून 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) मुदप्पा सी टी (जेसी-306638एफ), 30 जून 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) ए नागप्पन (जेसी-306639के), 01 जून 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) एम सुकुमारन (जेसी-306640वाई), 12 जून 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) जासेफ टी एम (जेसी-306641एफ), 01 जून 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) जे एतिराज (जेसी-306642के), 06 जून 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) शैक सुभानि (जेसी-306644पी), 01 जून 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) अशोका कुमार के (जेसी-306645एक्स), 17 जून 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) राधाकिष्णा फिल्लै के (जेसी-306646ए), 01 जुलाई 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) चंद्रन ए (जेसी-306647एच), 01 जुलाई 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) सी नागराज (जेसी-306648एल), 01 जुलाई 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) टी परसुरामन (जेसी-306675पी), 01 जुलाई 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) मनोहरन नायर पी बी (जेसी-306676एक्स), 01 जुलाई 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) एन गोविन्दसामी (जेसी-306677ए), 05 जुलाई 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) हेरकल विरूपाक्शप्पा (जेसी-306679एल), 05 जुलाई 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) अशोका कुमार के वी (जेसी-306682एल), 01 जुलाई 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) के वेंकटेशा मुदली (जेसी-306683एन), 01 जुलाई 2003।

बम्बई इंजिनियरिंग ग्रुप

सूबेदार मेजर (क्लर्क जी डी) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क जी डी) जगदीश सिंह (जेसी-224993एम), 04 मार्च 2003।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) रमीत सिंह (जेसी-216155एच), 04 फरवरी 2003।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) चिंतामणी अशोक मुरलीधर (जेसी-209645एन), 20 मार्च 2003।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) दत्तात्रय महादेव सावंत (जेसी-207920के), 03 फरवरी 2003।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) हरबंस सिंह (जेसी-209641एक्स), 24 मार्च 2003।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) वेद प्रकाश (जेसी-209575ए), 03 अप्रैल 2003।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) आनंद सिंह अधिकारी (जेसी-209651एफ), 12 नवम्बर 2002।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) बिरेन्द्र सिंह चोपड़ा (जेसी-216116के), 11 दिसम्बर 2002।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) अजीत सिंह (जेसी-209640पी), 15 मई 2002।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) ओंकार चन्द (जेसी-209657एच), 02 जनवरी 2003।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) बलवान सिंह जगौं (जेसी-207919पी), 03 मार्च 2003।

सूबेदार मेजर (एस टी के) के रैंक में

सूबेदार (एस के टी) रणधीर सिंह (जेसी-224999एन), 08 जनवरी 2003।

सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार (जी डी) शिव प्रसाद शर्मा (जेसी-210828के), 03 फरवरी 2003।

सूबेदार (जी डी) तरलोक सिंह (जेसी-207984पी), 16 दिसम्बर 2002।

सूबेदार (जी डी) लम्बर सिंह (जेसी-207945डब्ल्यू), 01 मार्च 2003।

सूबेदार (जी डी) राम मेहर सिंह (जेसी-207944एन), 23 जनवरी 2003।

सूबेदार (जी डी) पारले यशवंत गणपती एस एम (जेसी-209604के), 23 जनवरी 2003।

सूबेदार मेजर (क्लर्क जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) रंजिताश कुमार शर्मा (जेसी-348038ए), 06 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) सतीश कुमार (जेसी-348041ए), 13 मार्च 2003।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) राजेश नाथ पी एस (जेसी-348000डब्ल्यू), 27 नवम्बर 2002।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) नसरुद्दीन खान (जेसी-347989एल), 02 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) बनारसी दास (जेसी-348125एन), 13 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) बलजीत सिंह (जेसी-348007ए), 14 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) सुरेश बाबु एम जी (जेसी-348019पी), 21 मार्च 2003।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) रोशन लाल बक्शी (जेसी-348018एम), 21 मार्च 2003।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) पाटील कृष्णा कुंदल (जेसी-347975एल), 03 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) सुभाष चंद्र (जेसी-348043एल), 17 मार्च 2003।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) गोकुल राम (जेसी-347914एन), 14 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) ओंकार दास (जेसी-348026एल), 17 मार्च 2003।

सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

नायब सूबेदार (एस के टी) सुरेश कुमार (जेसी-348202एक्स), 19 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार (एस के टी) विरेंद्र सिंह (जेसी-348204एच), 19 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार (एस के टी) प्रवीण कुमार शर्मा (जेसी-348168पी), 30 जनवरी 2003।

सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार (जी डी) विमल सिंह कार्की (जेसी-348185एच), 02 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) कत बालु कृष्णा (जेसी-348411पी), 22 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) बाबुराव मारुती चव्हाण (जेसी-348127वाई), 26 नवम्बर 2002।

नायब सूबेदार (जी डी) चव्हाण सुखादेव ईश्वरा (जेसी-348233वाई), 06 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) बलविंदर सिंह (जेसी-348467एफ), 18 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) माहरानी दीन (जेसी-348388एम), 27 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार (जी डी) रतन लाल कुमार (जेसी-348439पी), 15 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) कैलाशनाथ भारद्वाज (जेसी-348400एच), 25 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) बलविंदर सिंह (जेसी-348428एच), 14 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) समकेवल मौर्या (जेसी-348367डब्ल्यू), 19 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार (जी डी) तैयब खान (जेसी-348365एल), 05 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार (जी डी) पुरन सिंह (जेसी-348387के), 03 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) गुरमीत सिंह (जेसी-348403डब्ल्यू), 05 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) जसवीर सिंह (जेसी-348405एफ), 27 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) बलकार सिंह (जेसी-348459एच), 21 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) मुख्तार सिंह (जेसी-348392पी), 26 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार (जी डी) गुरदीप सिंह (जेसी-348413ए), 15 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) जंगमोहन सिंह (जेसी-348311के), 16 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार (जी डी) सरवर अली खान (जेसी-348347एच), 01 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार (जी डी) शिव शंकर प्रसाद (जेसी-348407एम), 23 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) गोविंद प्रसाद पाठक (जेसी-348431एच), 24 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) विश्वरूप सिंह (जेसी-348479डब्ल्यू), 30 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार (जी डी) अर्जुन राम (जेसी-348450एन), 15 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) गुरदीप सिंह (जेसी-348425पी), 26 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार (जी डी) कृष्णा नंद (जेसी-348263पी), 26 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार (जी डी) मोहम्मद असलम खान (जेसी-348395एच), 27 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार (जी डी) होरी लाल (जेसी-348406के), 24 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) लखविंदर सिंह (जेसी-348458ए), 18 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) योगेश्वर त्रिपाठी (जेसी-348440के), 02 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) बख्शीश सिंह (जेसी-348344पी), 10 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार (जी डी) हरेंद्र कुमार गिरी (जेसी-348422एफ), 04 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार (जी डी) सतनाम सिंह (जेसी-348402एन), 27 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) करनैल सिंह (जेसी-348423के), 19 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार (जी डी) सुतार भगवान नामदेव (जेसी-348478एन), 17 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) दीपक कुमार थापा (जेसी-348023एक्स), 27 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार (जी डी) राजबीर (जेसी-348312एम), 12 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार (जी डी) मतबर सिंह (जेसी-348442पी), 06 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) जगताप दिनकर शिवाजी (जेसी-348378एच), 23 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार (जी डी) चंद्रपाल सिंह (जेसी-348429एल), 27 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) गज्जन सिंह (जेसी-348409एक्स), 16 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) अजय सिंह (जेसी-348414एच), 10 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) त्रिवेणी राय (जेसी-348421वाई), 21 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार (जी डी) उमा शंकर मौर्या (जेसी-348376एक्स), 30 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार (जी डी) सुरजीत सिंह (जेसी-348401एल), 16 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) राम एस शर्मा (जेसी-348408पी), 16 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार (जी डी) मंगल सिंह (जेसी-348415एल), 16 जनवरी 2003।

सूबेदार मेजर (क्लर्क जी डी) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क जी डी) सोलंकी परशोत्तम कांजी (जेसी-203115एच), 23 अक्टूबर 2000।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) सरूप सिंह (जेसी-203125एम), 15 नवम्बर 2000।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) पूनी लाल (जेसी-203114वाई), 23 अक्टूबर 2000।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) सुखमंदर सिंह (जेसी-203116एल), 10 नवम्बर 2000।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) निआजुद्दीन (जेसी-203011एफ), 07 नवम्बर 2000।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) गुरदर्शन सिंह (जेसी-203015 एक्स), 01 नवम्बर 2000।

सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार (जी डी) शाहजी वाघमोडे (जेसी-186325के), 26 मई 2000।

सूबेदार (जी डी) गुरनाम सिंह भट्टैया (जेसी-182598पी), 2 अगस्त 2000।

सूबेदार (जी डी) दिलबाग सिंह (जेसी-186335एन), 5 अगस्त 2000।

सूबेदार (जी डी) तुकाराम लक्ष्मण निराम (जेसी-191663एल), 9 अगस्त 2000।

सूबेदार (जी डी) अजीत लकरा (जेसी-203062पी), 1 नवम्बर 2000।

सूबेदार (जी डी) गजेंद्र सिंह (जेसी-191667एफ), 27 नवम्बर 2000।

सूबेदार (जी डी) फड पदमाकर भीमराव (जेसी-197262एम), 23 नवम्बर 2000।

सूबेदार (जी डी) बंत सिंह (जेसी-197268एन), 22 नवम्बर 2000।

सूबेदार (जी डी) मस्त राम (जेसी-191629एल), 19 दिसम्बर 2000।

सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार (जी डी) शौकत अली (जेसी-347022एच), 26 अगस्त 2000।

नायब सूबेदार (जी डी) अजीत सिंह (जेसी-347800एच), 17 अगस्त 2000।

नायब सूबेदार (जी डी) गुरबचन सिंह (जेसी-347711के), 30 सितम्बर 2000।

नायब सूबेदार (जी डी) मेहर सिंह (जेसी-347718एन), 16 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (जी डी) रामदास (जेसी-347720एल), 09 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (जी डी) गुरसेवक सिंह (जेसी-347771वाई), 14 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (जी डी) कपिल देव दुबे (जेसी-347790के), 29 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (जी डी) रघवीर सिंह (जेसी-347802एन), 02 दिसम्बर 2000।

नायब सूबेदार (जी डी) सतविंदर सिंह (जेसी-347531एफ), 01 दिसम्बर 2000।

नायब सूबेदार (जी डी) निम्बालकर महादेव जगन्नाथ (जेसी-347716एच), 18 दिसम्बर 2000।

सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) गुरमेल सिंह (जेसी-347613के), 13 सितम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) राम आसरे पाल (जेसी-347614एएम), 8 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) भगवान सिंह (जेसी-347668एन), 9 दिसम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) जसमेल सिंह (जेसी-347637एन), 9 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) शमशेर सिंह (जेसी-347618एच), 2 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) सतविंदर सिंह (जेसी-347646पी), 6 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) गुरपाल सिंह (जेसी-347639वाई), 6 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) रघवीर सिंह (जेसी-347619एल), 24 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) जमुना प्रसाद (जेसी-347642वाई), 20 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) ध्यान सिंह (जेसी-347641डब्ल्यू), 11 दिसम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) जमाल दीन (जेसी-347620ए), 8 दिसम्बर 2000।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) देब सिंह (जेसी-347647एक्स), 14 दिसम्बर 2000।

सूबेदार मेजर (एस के टी) के रैंक में

सूबेदार (एस के टी) रंजीत सिंह (जेसी-216113डब्ल्यू), 21 नवम्बर 2000।

बी. पी. शर्मा
उप सचिव

सं. 656, दिनांक 15.10.03--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना विभाग

विशेष सूची

जम्मू और कश्मीर राईफलस

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार पंडित जी आर शर्मा (जेसी-87472के), जैक राईफलस, 03 जनवरी 2003*।

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी।)

सूबेदार पंडित डी आर गौतम (जेसी-87199ए), जैक राईफलस, 04 फरवरी 2003*।

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी।)

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार पंडित युगल किशोर खजूरिया (जेसी-224159एन), जैक राईफलस, 01 मार्च 2002।

नायब सूबेदार पंडित पूरन चन्द्र लेखक (जेसी-578006डब्ल्यू), जैक राईफलस, 01 नवम्बर 2002।

विशेष सूची

दि सिख एल आई

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

जसविंदर सिंह (जेसी-508750डब्ल्यू), 16 जून 2001।

जगजित सिंह (जेसी-508887एच), 30 नवम्बर 2002।

पैराशूट रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

तरकेश्वर मिश्रा (जेसी-412614एच), 16 जून 2001।

डोगरा रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

भरतजी द्विवेदी (जेसी-519457वाई), 30 नवम्बर 2002।

मोहन नाथ तिवारी (जेसी-519458एफ), 30 नवम्बर 2002।

जाट रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

प्रभाकर मिश्र (जेसी-489272ए), 30 नवम्बर 2002।

दिवाकर
अवर सचिव

वायु सेना मुख्यालय

सं. 657, दिनांक 14 अक्टूबर 03--राष्ट्रपति सहर्ष, श्री आर एन पांडे, सहायक निदेशक (राजभाषा), (ग्रुप ख राजपत्रित) को सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों में दिनांक 06 जून 2003 पूर्वा. से उप निदेशक (राजभाषा), (ग्रुप क राजपत्रित) वेतनमान 10,000--15,200/-के पद पर अगले आदेश जारी होने तक अथवा 27 नवम्बर 2003 तक अथवा चयन सूची से नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर पदोन्नत करते हैं।

उपरलिखित अधिकारी की पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर है :--

- क. यह पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई आधार पर की गई है तथा प्रशासनिक कारणों पर बिना किसी पूर्व सूचना दिये समाप्त की जा सकती है।
- ख. उपर्युक्त पद पर स्थाई पदोन्नति के लिए उनका न तो कोई दावा होगा न ही उनका अस्थाई नियुक्ति की अवधि को धरिष्ठता के लिए गिना जाएगा।

सन्तोष दासगुप्ता

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. 658, दिनांक 20 अक्टूबर 03--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजिनियरिंग शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

वी के शर्मा (10670), वै इ (वै)--17.02.1998।

आर के धरमानी (13490), वै इ (वै)--21.09.1998/17.02.1998 (एन एस)।

आर पदमानाभन (13475), वै इ (वै)--17.02.1998।

आर पी सिन्हा (13484), वै इ (यां)--04.05.1998।

एस एस आर गुणाशेखर (13487), वै इ (यां)--04.05.1998।

वी के तिवारी (13198), वै इ (वै)--04.05.1998।

वी के सक्सेना (13278), वै इ (वै)--04.05.1998।

एस आर गोपालाकृष्णन (13469), वै इ (वै)--04.05.1998।

के के गोयल (13535), वै इ (वै)--04.05.1998।

जोसेफ नेरी (13711), वै इ (वै)--04.05.1998।

एस सी गौर (14118), वै इ (यां)--04.05.1998।

एच पी एस नन्दा (13726), वै इ (वै)--04.05.1998।

ए एस चग्गार (13729), वै इ (यां)--04.05.1998 (पी/आर-30.11.99)।

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

पी पी गन्डा (13705), वै इ (वै)--04.05.1998।
 एस के पूरी (13278), वै इ (वै)--04.05.1998।
 बी के मूर्ली (13728), वै इ (यां)--04.05.1998।
 एन ए प्रभू (13706), वै इ (वै)--21.09.1998/01.06.1998
 (एन एस)।

आर के वशिष्ठ (13832), वै इ (यां)--01.06.1998।
 एस सी पाऊल (13844), वै इ (यां)--21.09.1998।
 पी एस प्रूथी (13820), वै इ (वै)--12.10.1988।
 प्रवीण खन्ना (13833), वै इ (यां)--22.10.1998।
 पी बासु (13828), वै इ (वै)--01.02.1999।
 आर दोराईराज (13469), वै इ (वै)--19.04.1999।
 एस पी पागय (12099), वै इ (वै)--01.01.2000।
 आर के कपूर (12452), वै इ (वै)--01.01.2000।
 रिषी चंद (13175), वै इ (यां)--01.01.2000।
 एम के लबरू (13731), वै इ (यां)--01.01.2000।

उषा नीलकण्ठन

उप निदेशक, कार्मिक अधिकारी 2(बी)

सं. 659, दिनांक 17 अक्टूबर 03--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां
 मूल रैंक में करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

फ्लाईंग अफसर की मूल फ्लाईट लेफ्टिनेंट के रैंक में

वैमानिक अभियांत्रिक (मैकेनिकल) शाखा

पी आर पोती (25438), 27 दिसम्बर 2001 से।

उड़ान पायलट शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेंट स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में ;

अगस्टीन एम जे वी (21819), 13 जून 2002 से।

फ्लाईट लेफ्टिनेंट स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में

उड़ान (नेविगेशन) शाखा

सिंह ए के (21985), 13 जून 2002 से।

चौधरी आर आर (22581), 21 जून 2003 से।

कुमार आर (22582), 21 जून 2003 से।

अरूणाचलम टी (22585), 21 जून 2003 से।

फाटक मिलिन्द यशवन्त (22588), 21 जून 2003 से।

मनीष झा (22589), 21 जून 2003 से।

संजय वर्मा (22591), 21 जून 2003 से।

सिंघल एम के (22592), 21 जून 2003 से।

चौहान आर पी एस (22593), 21 जून 2003 से।

गोड़ सुरेन्द्र पाल (22595), 21 जून 2003 से।

वसन एम एस (22597), 21 जून 2003 से।

सरीन विकास (22598), 21 जून 2003 से।

कुकरेती वी (22599), 21 जून 2003 से।

एस श्रीवास्तव
 स्क्वाड्रन लीडर
 डी डी पी ओ 3 (डी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 15th November 2003

(ARMY BRANCH)

No. 650, dated 15th October 2003—The President is pleased to make the following appointment :—

REGULAR ARMY

SPECIAL LIST

INFANTRY

THE MARATHA LI

To be Nb Sub

Uma Shankar Dwivedi (JC-459091A), 15th Feb 2003.

DIWAKAR
Under Secy.

NAVY BRANCH

No. 651, dated 20 October 03.—The President is pleased to make the following appointment in the Electrical Branch of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence letter No. MF/1822/DES/1599/US(P)/D(N-II) dated 12 November 2002 from the date shown against each name :—

To be Sub Lt (on Probation)

Direct Entry Scheme (Electrical Branch)

Name, Personal Number, Type of Commission & Date of
Commission

Jash Soumen (51775W), SSC, 01.01.2001.

Nehru Vikram (51776Y), SSC, 01.01.2001.

N Varadharaj (51777Z), SSC, 01.01.2001.

Singh Ajitpal (51778A), SSC, 01.01.2001.

Kumar Hitesh (51779B), SSC, 01.01.2001.

JAIDEEP KASHYAP
Cmdr
DDMPR (R&R)

ARMY BRANCH

No. 652, dated 14 October 03.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

(ARMOURED CORPS)

To be Nb Ris

Dfr Unni Krishna Pillai N (No. 01074595N now JC-240105W), 20 May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Harpal Singh (No. 010776793X now JC-240114X), 12 Apr 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Karam Chand (No. 01071107P now JC-240117L), 02 Apr 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Eshwari Prasad (No. 01070843F now JC-240120L), 12 Apr 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 05 Dec 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Hardeep Singh (No. 01070660L now JC-240121M), 02 Apr 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Mohan Ram Khileri (No. 01071165Y now JC-240125K), 02 Apr 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Malook Singh (No. 01070767A now JC-240126M), 02 Apr 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Mahendra Kumar Samal (No. 01067895M now JC-240147H), 22 Apr 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Anil CH Deka (No. 01068168F now JC-240148L), 22 Apr 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 23 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Machal Singh Gaharwal (No. 01066683P now JC-240156K), 25 Apr 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 17 Mar 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Neela Kanth Yesu Nair (No. 01070064Y now JC-240169F), 17 May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 06 Mar 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Ram Singh (No. 01063169A now JC-240183N), 26 May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Nihal Singh (No. 01065589Y now JC-240184W), 03 May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Mahendra Kumar Rajkumawat (No. 01065918K now JC-240185Y), 17 May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Hanuman Singh (No. 01070483W now JC-240186F), 25 May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Harjit Singh (No. 01077380A now JC-240187K), 19 May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Nathu Singh (No. 01065970M now JC-240188M), 11 Jun 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Malappa Pujari (No. 01066825F now JC-240189P), 05 May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Kulbhushan Singh (No. 01062766H now JC-240190K), 19 May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Jai Bhagwan (No. 01066111N now JC-240191M), 02 Jun 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 06 Apr 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr G Senthamarai Kannan (No. 01066869Y now JC-240192P), 21 May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr G Majbut Singh Sengar (No. 01065946W now JC-240194A), 07 May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Chaman Singh (No. 01070440F now JC-240195H), 29 May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Ashok Kumar (No. 01064085Y now JC-240196L), 29 May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Subhash Chander Karmakar (No. 01068487N now JC-240197M), 24 May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Sambhu Ram Nath (No. 01065414W now JC-240199Y), 04 Jun 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Bhaggu Ram Jat (No. 01071169P now JC-240200H), 30 Jun 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 04 May 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Hansraj (No. 01064880Y now JC-240201L), 30 Jun 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 07 May 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Hari Ram (No. 01062764X now JC-240202N), 15 May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 08 May 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Chandra Pratap (No. 01066197X now JC-240203W), 30 May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 11 May 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Ranjit Singh (No. 01063608A now JC-240204Y), 30 May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 15 May 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Malawar Shri Krishna Bhaduji (No. 01067742H now JC-240205F), 17 Jun 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 06 Mar 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr K Govardhanan (No. 01066514M now JC-240207M), 16 Jun 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 18 May 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Chaware Giridhar Tulshi Ram (No. 01070815P now JC-240211P), 23 Jun 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Ganauri Prasad (No. 01068706K now JC-240212X), 23 Jun 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allowances).

Dfr Mahendra Singh Verma. (No. 01064005W now JC-240213A), 01 Jun 2003.

Dfr Rabindra Kumar Mishra (No. 01067091X now JC-240214H), 01 Jun 2003.

Dfr MD Anowar Pasha (No. 01069564K now JC-240216N), 17 Jun 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allowances).

(To be Substantive Risaldar)

Naib Risaldar Onkar Singh Ishar (JC-237312X), 07 Dec 2000*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2000 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Shyam Murari (JC-239318X), 28 Jul 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 27 Sep 2002 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Kartar Singh (JC-239194H), 15 Jul 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Prah'ad (JC-239211H), 19 Jul 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Baldev Singh (JC-238958P), 01 Jan 2003.

Naib Risaldar Ramesh Chand (JC-239315K), 28 Jul 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Dilbagh Singh Dahiya (JC-239439Y), 17 Jul 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Rama Shankar Ray (JC-237241F), 21 May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 11 Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Rajinder Singh (JC-239404H), 19 Jul 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Om Kumar Thapa (JC-239325M), 01 Aug 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 23 Mar 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Raj Kumar (JC-238358M), 01 Apr 2003.

Naib Risaldar Vijender Singh (JC-238389M), 01 Apr 2003.

Naib Risaldar Sampat Kumar Kulhari (JC-239016L), 04 Aug 2003.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Raja Ram Yadav (JC-238762F), 30 Jun 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 31 May 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Bholu Ram (JC-238704X), 17 Jul 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 31 May 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Gaya Prasad Sharma (JC-237417F), 08 Aug 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Prabhat Chandra Barman (JC-237885Y), 29 Jul 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Vijay Lal (JC-237952L), 11 Aug 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Ram Kishan (JC-238295P), 19 Jul 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Chittar Singh Rathore (JC-238289F), 16 Jul 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Dharambir Singh (JC-239244N), 15 Jul 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Dilawar Singh Kaushal (JC-237729X), 21 Jul 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 13 Jun 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Roshan Lal Sharma (JC-238018K), 15 Jul 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 13 Jun 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Balwan Singh (JC-238003F), 11 Aug 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 13 Jun 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Lallan Prasad Vishwakarma (JC-238522X), 16 Jul 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 13 Jun 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Sodan Singh (JC-238642H), 12 Jul 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Surjit Singh (JC-238473M), 17 Jul 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Asraf Ali (JC-239193L), 01 Aug 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Balbir Singh (JC-238707L), 01 Aug 2003.

Naib Risaldar Ram Karan (JC-238319N), 01 Aug 2003.

Naib Risaldar Mohan Singh (JC-238509A), 01 Aug 2003.

Naib Risaldar Mahipal Singh Chouhan (JC-238545L), 07 Aug 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Mehtab Singh (JC-238635M), 02 Aug 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2003 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Mohanan E (JC-238698P), 01 Aug 2003.

Naib Risaldar Ranjit Singh (JC-238744Y), 01 Aug 2003.

Naib Risaldar Honnappa KG (JC-239333M), 01 Aug 2003.

Naib Risaldar Inder Singh (JC-239433L), 01 Aug 2003.

Naib Risaldar Umesh Prasad Shrivastva (JC-239460F), 01 Aug 2003.

BRIGADE OF THE GUARDS

To be Sub

Nb Sub Rama Nath Singh (JC-402696H), 01st Jan 2003.

Nb Sub Ram Kishan (JC-402634H), 01st Apr 2003.

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-402715H), 01st May 2003.

Nb Sub Anil Kumar Mehta (JC-402696Y), 12th May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of sub without effect on pay and allces wef 01 May 2003).

Nb Sub Yudhbir Singh Slathia (JC-402719Y), 01st May 2003.

Nb Sub Jagmohan Singh (JC-402697L), 01st Jul 2003.

Nb Sub Shri Chand (JC-402849F), 01st Aug 2003.

Nb Sub Chhitar Singh (JC-402860A), 01st Aug 2003.

To be Nb Sub

Hav Raksh Pal Shakya (No. 13679583K now JC-403376A), 1st Jan 2003.

Hav Satya Pal Singh (No. 13681400A now JC-403377H), 03rd Apr 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 07 Mar 2003).

Hav Sant Ram (No. 13686452F now JC-403378L), 21st Mar 2003.

Hav Pabitra Mohan Panda (No. 13685458W now JC-403379N), 22nd Mar 2003.

Hav Kailash Chander (No. 13681499H now JC-403380H), 01st Apr 2003.

Hav Digambar Singh (No. 13681711P now JC-403381L), 11th Apr 2003.

Hav Om Prakash (No. 13682976L now JC-403382N), 26th May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 11 Apr 2003).

Hav Ashok Kumar Singh (No. 13688424N now JC-403383W), 01st Aug 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 25 Apr 2003).

Hav Deo Sagar Singh (No. 13685685W now JC-403384Y), 08th May 2003.

Hav Bishwa Mitra (No. 13683461X now JC-403385F), 01st Jun 2003.

Hav Pulin Chandra Deka (No. 13683015W now JC-403386K), 10th Jun 2003.

Hav Shyamvir Singh (No. 13684739A now JC-403387M), 01st Aug 2003.

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Ummed Singh (JC-418894X), 20th May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Substantive Subedar with effect from 01 Nov 2002 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Narinder Singh (JC-418728K), 23rd May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Substantive Subedar with effect from 01 Mar 2003 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Teware Pandurang Ananda (JC-418700A), 01st Apr 2003.

Nb Sub Sheopal Singh (JC-418946H), 01st Apr 2003.

Nb Sub Surinder Singh (JC-418948N), 18th Jun 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Substantive Subedar with effect from 01 Apr 2003 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ajit Singh (JC-418802A), 24th May 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Substantive Subedar with effect from 01 May 2003 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Netra Bahadur Thapa (JC-418940F), 09th Jun 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Substantive Subedar with effect from 01 May 2003 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Dalbir Singh Nain (JC-419019F), 19th Jul 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Substantive Subedar with effect from 01 Jul 2003 without effect on pay and allowances).

To be Substantive Subedar Clerk

Nb Sub Clk Ranjit Singh (JC-418873F), 01st May 2003.

To be Naib Subedar (Clerk)

Hav Clk Karan Singh (14909505K now JC-419741A), 03rd May 2003*.

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 May 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Lal Singh (14909597F now JC-419742H), 08th May 2003*.

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 May 2003 without effect on pay and allowances).

JOSE THOMAS
Under Secy.

No. 653, dated 16 October 2003—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY
CORPS OF AD ARTILLERY
To be Nb Sub.

RHM Shiv Singh (14377425N now JC-298698Y), 12 Jul 2003/01 Jul 2003*.

CHM Dinkar Dhondiba Pandhre (6915120X now JC-298699F), 21 Jul 2003/19 Dec 2001*.

Hav John MA (14350554K now JC-298700L), 07 Apr 2003/01 Mar 2003*.

Hav Prem Singh (14347115N now JC-298701N), 03 Jul 2003/01 Jun 2003*.

Hav Kalidas Roy (14346365H now JC-298702W), 28 Jul 2003/01 Jun 2003*.

Hav Arokia Doss Y (14386263P now JC-298703Y), 24 Jul 2003/28 Jun 2003*.

Hav Gopal Singh (14396391A now JC-298704F), 01 Jul 2003.

Hav Ram Pratap Sah (14341712M now JC-298705K), 06 Jul 2003/01 Jul 2003*.

Hav Sabash Pada Noatia (14384700L now JC-298706M), 14 Jul 2003/01 Jul 2003*.

BHM Rajagppalan P (14473378Y now JC-298707P), 25 Jul 2003/01 Jul 2003*.

Hav Umakant Agnihotri (14489327P now JC-298708X), 01 Jul 2003.

Hav Gurmeet Singh (14465516A now JC-298709A), 09 Jul 2003/01 Jul 2003*.

RHM Pratap Singh Kaita (14371444M now JC-298710P), 05 Aug 2003/01 Jul 2003*.

RHM Satnam Singh (14378805Y now JC-298711X), 01 Aug 2003.

BHM Patel Kantilal Maganbhai (14465104Y now JC-298712A), 07 Jul 2003/01 Jul 2003*.

Hav Bhoja Ram Yadav (14364974P now JC-298713H), 26 Jul 2003/01 Jul 2003*.

BHM Manohar Prasad (14466852Y now JC-298714L), 28 Jul 2003/01 Jul 2003*.

BHM Raj Singh (14342728K now JC-298715N), 01 Aug 2003/02 Jul 2003*.

BHM Omvir Singh (14360982W now JC-298716W), 02 Aug 2003/08 Jul 2003*.

RHM Udhairaj Singh (14340888L now JC-298717Y), 12 Aug 2003/13 Jul 2003*.

*(Gtd ante-date seniority wef).

RAJENDRA CHATURVEDI
Under Secy.

No. 654, dated 15th October 2003—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
ARMY EDUCATIONAL CORPS
To be Subedar

PA Sub Ganesh Dutt Tripathi (JC-802601L), 07 Feb 2003*.

PA Sub Suresh Chander (JC-802603W), 08 Mar 2003*.

PA Sub Rattan Jit (JC-802604Y), 11 Feb 2003*.

PA Sub Khachera Singh (JC-802605F), 22 Feb 2003*.

PA Sub Ibrah Ahmed (JC-802606K), 03 Feb 2003*.

PA Sub Virender Kumar Biniola (JC-802609X), 21 Feb 2003*.

PA Sub Rajendra Singh (JC-802610M), 03 Feb 2003*.

PA Sub Ashok Sharma (JC-802611P), 05 Feb 2003*.

PA Sub Sunil Kumar (JC-802613A), 25 Feb 2003*.

PA Sub Shiv Shankar Pandey (JC-802616N), 24 Feb 2003*.

PA Sub Brajesh Singh (JC-802622F), 08 Feb 2003*.

PA Sub Mahesh Chandra (JC-802633N), 10 Feb 2003*.

PA Sub Arup Kumar Pandey (JC-802638M), 24 Feb 2003*.

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 05 Jan 2003 without effect on pay and allowances).

PA Sub Dhruvendra Kumar (JC-802639P), 08 Mar 2003@.

PA Sub Sudershan Singh (JC-802641M), 07 Mar 2003@.

PA Sub Surendra Singh (JC-802645H), 06 Mar 2003@.

PA Sub Ansar Husain (JC-802647N), 08 Mar 2003@.

PA Sub Rameshwar Prasad (JC-802649Y), 08 Mar 2003@.

@(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allowances).

PA Sub Narayan Singh Chauhan (JC-802655M), 01 Mar 2003.

PA Sub Dori Lal (JC-802656P), 01 Mar 2003.

PA Sub Rachhpal Singh (JC-802659H), 01 Mar 2003.

PA Sub Dhanpal Singh (JC-802661A), 01 Mar 2003.

PA Sub/Clk Pan Singh Mehta (JC-802857N), 01 Mar 2003.

PA Sub Birender Singh (JC-802663L), 05 Apr 2003#.

PA Sub Manvir Sharma (JC-802665W), 01 Apr 2003.

#(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2003 without effect on pay and allowances.)

To be Naib Sub

Hav Shyam Sunder (No. 9509209H now JC-803408L), 04 Dec 2003@.

Hav Rajesh Singh Tanwar (No. 9509211A now JC-803409N), 30 Nov 2002@.

Hav Suresh Pal (No. 9509212H now JC-803410H), 17 Nov 2002@.

Hav Manroop Singh Maan (No. 9509213L now JC-803411L), 05 Feb 2003@.

Hav Anil Kumar PK (No. 9509251F now JC-803412N), 14 Dec 2002@.

Hav Naresh Chander Chhillar (No. 9509216Y now JC-803413W), 20 Nov 2002@.

Hav Pritam Singh (No. 9509223P now JC-803414Y), 03 Dec 2002@.

Hav Jaspal Singh (No. 9509224X now JC-803415F), 01 Dec 2002@.

Hav Bhagwat Dayal (No. 9509225A now JC-803416K), 25 Dec 2002@.

Hav Azad Singh (No. 9509227L now JC-803417M), 14 Nov 2002@.

Hav Ram Bahadur Limbu (No. 9509228N now JC-803418P), 19 Dec 2002@.

Hav Sohan Veer Singh (No. 9509230L now JC-803419X), 14 Dec 2002@.

Hav Anant Parkash (No. 9509231N now JC-803420M), 04 Dec 2002@.

Hav Pradeep Tiwari (No. 9509232W now JC-803421P), 18 Nov 2002@.

Hav Jagatap Ramdas Anandrao (No. 9509234F now JC-803422X), 21 Nov 2002@.

Hav Rama Shanker Gautam (No. 9509236M now JC-803424H), 27 Nov 2002@.

Hav Ashok Kumar Singh (No. 9509237M now JC-8034256H), 25 Nov 2002@.

Hav Sube Singh (No. 9509239A now JC-803426N), 23 Nov 2002@.

Hav Sarbjeet Singh (No. 9509241X now JC-803427W), 03 Feb 2003@.

Hav Manoj Kumar Pandey (No. 9509245N now JC-803428Y), 14 Dec 2002@.

Hav Akhilesh Kumar Shishodia (No. 9509248F now JC-803429F), 20 Nov 2002@.

Hav Ratan Singh (No. 9509250Y now JC-803430W), 12 Nov 2002@.

Hav Ramesh Chandra Singh (No. 9509252K now JC-803431Y), 03 Jan 2003@.

Ram Kumar (No. 9509255X now JC-803432F), 19 Dec 2002@.

Hav Om Prakash (No. 9509259N now JC-803434M), 27 Nov 2002@.

Hav Indra Jeet Singh Teotia (No. 9509264Y now JC-803435P), 18 Nov 2002@.

Hav Sarat Chandra Behera (No. 9509265F now JC-803436X), 03 Dec 2002@.

Hav Suchet Singh (No. 9509266K now JC-803437A), 20 Nov 2002@.

Hav Onkar Singh (No. 9509267M now JC-803438H), 18 Dec 2002@.

Hav Satendra Kumar (No. 9509269X now JC-803439L), 22 Nov 2002@.

Hav Bhim Singh Tanwar (No. 9509271P now JC-803440A), 04 Dec 2002@.

Hav Shri Krishan Jat (No. 9509273A now JC-803441H),
21 Nov 2002@.

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2002 without effect on pay and allowances.)

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS
To be Naib Subedar

BHM Bil Bahadur Thapa (5344484Y now JC-826122H),
1 Aug 2003.

BHM Hem Bahadur Khand (5750332F now JC-826123L),
01 Aug 2003.

V. K. KAPOOR
Under Secy

No. 655, dated 17th October 2003—The President is
pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY
CORPS OF ENGINEERS
MADRAS ENGINEER GROUP
To be Nb Sub Clk (GD)/Store

Hav/Clk (GD) Brajesh Kumar Ray (No. 1383702K now JC-307593Y), 03 Dec 2002@.

Hav/Clk (GD) R Ramdoss (No. 1383717M now JC-307594F), 18 Nov 2002@.

Hav/Clk (GD) Pratipal Singh Narwaria (No. 1382565K now JC-307595K), 16 Nov 2002@.

Hav/Clk (S) V Elumalia (No. 15300496L now JC-307597P), 09 Nov 2002@.

Hav/Clk (S) Simon AK (No. 15300653M now JC-307611W), 02 Dec 2002#.

Hav/Clk (S) Anil Kumar VK (No. 15300736X now JC-307612Y), 02 Dec 2002#.

Hav/Clk (S) K Doddalinga Gowda (No. 15300930M now JC-307613F), 02 Dec 2002#.

Hav/Clk (S) Sankar T (No. 15301176H now JC-307614K),
02 Dec 2002#.

Hav/Clk (S) Suresh Babu AV (No. 15301247Y now JC-307615M), 02 Dec 2002#.

Hav/Clk (S) Vinodan PP (No. 15301249K now JC-307616P), 02 Dec 2002#.

Hav/Clk (S) Pampana Ram Babu (No. 15301198F now JC-307617X), 02 Dec 2002#.

Hav/Clk (S) Prabakaran V (No. 15301324H now JC-307618A), 02 Dec 2002#.

Hav/Clk (S) Sampat Singh Sishodi (No. 15303736H now JC-307619H), 02 Dec 2002#.

Hav/Clk (GD) Balram Singh Chauhan (No. 1383752P now JC-307621A), 06 Jan 2003\$.

Hav/Clk (GD) Parimal Kumar Sarkar (No. 1383923K now JC-307622H), 07 Jan 2003\$.

Hav/Clk (GD) Bashir Ahmad Khan (No. 1384239A now JC-307623L), 03 Mar 2003\$.

Hav/Clk (GD) Kotambe Gorokh Thulsi Ram (No. 1384519N now JC-307625W), 10 Feb 2003\$.

Hav/Clk (GD) Moti Chand Ram (No. 1384838A now JC-307645K), 03 Feb 2003##.

Hav/Clk (GD) Muni Lal Yadav (No. 1384847F now JC-307646M), 19 Feb 2003##.

Hav/Clk (GD) Gyan Singh (No. 15300205A now JC-307647P), 18 Feb 2003##.

Hav/Clk (GD) Satbir Singh Atri (No. 15300208N now JC-307648X), 01 Feb 2003##.

Hav/Clk (GD) Senthil Kumar B (No. 15300426M now JC-307649A), 01 Feb 2003##.

Hav/Clk (GD) Bhoop Singh (No. 15300510M now JC-307650P), 18 Feb 2003##.

Hav/Clk (GD) GG Bhaskaran (No. 15300522F now JC-307622K), 03 Mar 2003@@.

Hav/Clk (GD) K Christhuva Raj (No. 15300523K now JC-307663M), 04 Mar 2003@@.

Hav/Clk (GD) R Robert (No. 15300524M now JC-307664P), 05 Mar 2003@@.

Hav/Clk (GD) Ranjeet Singh (No. 15300637P now JC-307665X), 01 Mar 2003@@.

To be Nb Sub SKsT

Hav/SKT Hari Singh Yadav (No. 1377465 P now JC-307559Y), 11 Dec 2002*.

Hav/SKT Mangey Ram (No. 1377470A now JC-307583P),
26 Dec 2002**.

Hav/SKT Jagdeep Singh Mehta Shankar (No. 15307697M now JC-307425A), 09 Jan 2003***.

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2002 without effect on pay and allce.)

#(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec
2002 without effect on pay and allce.)

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan
2003 without effect on pay and allce.)

##Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb
2003 without effect on pay and allce.)

@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar
2003 without effect on pay and allce.)

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul
2002 without effect on pay and allce.)

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep
2002 without effect on pay and allce.)

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2002 without effect on pay and allice.)

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) T Rajendran (1366347F now JC-307628K), 20 Mar 2003@.

Hav (GD) A Ganesan (1370107F now JC-307629M), 10 Mar 2003@.

Hav (GD) V Narasimhulu (1370265W now JC-307630F), 03 Feb 2003@.

Hav (GD) K Masilamani (1370257X now JC-307631K), 03 Feb 2003@.

Hav (GD) R Sekar (1372239N now JC-307632M), 01 Feb 2003@.

Hav (GD) Kasmi TI (1373531P now JC-307634X), 20 Feb 2003@.

Hav (GD) C Babu (15310495W now JC-307635A), 01 Feb 2003@.

Hav (GD) Shaji K (15311393M now JC-307636H), 12 Mar 2003@.

Hav (GD) Vijayan A (1368658N now JC-307637L), 01 Feb 2003@.

Hav (GD) A Abdul Wahab (1370473L now JC-307638N), 01 Feb 2003@.

Hav (GD) Sudhakaran (1371115M now JC-307639W), 22 Mar 2003@.

Hav (GD) G Narayanappa (1371828X now JC-307640L), 01 Feb 2003@.

Hav (GD) A Rajagopal (1372691 H now JC-307641N), 20 Mar 2003@.

Hav (GD) BV Satyanarayana (1373189A now JC-307642W), 05 Feb 2003@.

Hav (GD) Dileep Kumar S. (1373839H now JC-307643Y), 27 Feb 2003@.

Hav (GD) K Durai Pandian (1374145P now JC-307644F), 01 Feb 2003@.

Hav (GD) Paulose PT (15315993M now JC-307651X), 25 Feb 2003@.

Hav (GD) Panner K (1374454X now JC-307652A), 13 Mar 2003*.

Hav (GD) A Arokiasamy (1374940P now JC-307653H), 10 Mar 2003*.

Hav (GD) Rathnakaran M (1376588P now JC-307655N), 16 Apr 2003*.

Hav (GD) G Sekar (1369496A now JC-307656W), 24 Mar 2003*.

Hav (GD) P Ravi (1369556K now JC-307657Y), 13 Mar 2003*.

Hav (GD) Sivadasan (1370047X now JC-307658), 13 Mar 2003*.

Hav (GD) Packiam A (1370891A now JC-307659K), 18 Mar 2003*.

Hav (GD) Sivanandam A (1371198H now JC-307660Y), 08 Mar 2003*.

Hav (GD) K Pandi (1371564F now JC-307661F), 12 Mar 2003*.

Hav (GD) Prabhakaran K (1372184P now JC-307667H), 09 Apr 2003#.

Hav (GD) P Anandorai (1372508P now JC-307668L), 07 Apr 2003#.

Hav (GD) K Rajendra Murthy (1372831K now JC-307669N), 07 Mar 2003#.

Hav (GD) C Devarajan (1373402P now JC-307670H), 05 Apr 2003#.

Hav (GD) N Vidyadaran Mandadi (1373466A now JC-307671L), 10 May 2003#.

Hav (GD) Sasidharan C (1373633 L now JC-307672N), 07 Apr 2003#.

Hav (GD) Ramachandran A (1374004 A now JC-307673W), 07 Apr 2003#.

Hav (GD) KV Ravichandran (1374059 K now JC-307674Y), 05 Apr 2003#.

Hav (GD) M Maria Santhanam (1374393 L now JC-307675F), 10 Apr 2003#.

Hav (GD) M Muthusamy (1374397F now JC-307676K), 01 Apr 2003#.

Hav (GD) Muraleedharan M (1376124X now JC-307677M), 19 May 2003#.

Hav (GD) Ganesan P (1376675H now JC-307678P), 11 Apr 2003#.

Hav (GD) U Kalayana Sundaram (1377218F now JC-307679X), 05 Apr 2003#.

Hav (GD) Rajasekhara (1377253K now JC-307680M), 05 Apr 2003#.

Hav (GD) Chandrayya C Kulkarani (1377282Y now JC-307681P), 05 Apr 2003#.

Hav (GD) M Ekambaram (1370164H now JC-307683A), 01 Mar 2003#.

Hav (GD) K Manogaram (1371032F now JC-307684H), 04 Apr 2003#.

Hav (GD) V Joseph (1371228P now JC-307685L), 24 Apr 2003#.

Hav (GD) D Ellappan (1371678M now JC-307686N), 07 Apr 2003#.

Hav (GD) Thampi TK (1371777P now JC-307687W), 05 Apr 2003#.

Hav (GD) M Sahaya Raj (1371848L now JC-307688Y), 04 Apr 2003#.

Hav (GD) Rajan PK (1372318H now JC-307689F), 21 May 2003#.

Hav (GD) S Jaganathan (1372333X now JC-307690W), 04 Apr 2003#.

Hav (GD) S Rajimon (15313436P now JC-307691Y), 04 Apr 2003##.

Hav (GD) L Jayaseelan (1362523W now JC-307696X), 09 May 2003#.

Hav (GD) K Mahendiran (1369916P now JC-307698H), 12 May 2003#.

Hav (GD) Devarapalli Mysaiah (1366918P now JC-307699L), 02 May 2003#.

Hav (GD) Ramadas CP (1372859K now JC-307701X), 12 May 2003#.

Hav (GD) Bannidi Mohana Rao (1373065L now JC-307702A), 23 May 2003\$.

Hav (GD) M Kannan (1369583N now JC-307703H), 01 May 2003\$.

Hav (GD) George K Abraham (1371695M now JC-307704L), 04 Jun 2003\$.

Hav (GD) Mahabub Babu Sampagaon (1372855N now JC-307705N), 01 May 2003\$.

Hav (GD) Jayaprasad N (15308882M now JC-307706W), 06 May 2003\$.

Hav (GD) B Gnanaprakasam (1374594K now JC-307707Y), 06 May 2003\$.

Hav (GD) G Subhagan (1370730X now JC-307708F), 02 May 2003\$.

Hav (GD) Ramagondappa Gurulingappa Bismal (1373000X now JC-307709K), 26 May 2003\$.

Hav (GD) N Ekambaram (1373243H now JC-307710Y), 06 May 2003\$.

Hav (GD) G Marika Banthu (1371769W now JC-307711F), 01 May 2003\$.

Hav (GD) K Ramar (1369710X now JC-307712K), 01 May 2003\$.

Hav (GD) S Murthy (1370154Y now JC-307713M), 09 May 2003\$.

Hav (GD) Bhasaradhan U (1371561N now JC-307729X), 01 Jun 2003%.

Hav (GD) S Dinakaran (1371764X now JC-307730M), 10 Jun 2003%.

Hav (GD) Vijayan AM (1372313K now JC-307731P), 02 Jun 2003%.

Hav (GD) Suresh Sahbavarapu (1374042W now JC-307732X), 01 Jun 2003%.

Hav (GD) Joseph KP (1374548P now JC-307733A), 01 Jun 2003%.

Hav (GD) A Jagadish (1375496W now JC-307734H), 02 Jun 2003%.

Hav (GD) Anthony KV (1371219N now JC-307735L), 01 Jun 2003%.

Hav (GD) Lurtha Nathan (1371807F now JC-307736N), 01 Jun 2003%.

Hav (GD) A Joseph (1372265P now JC-307737W), 01 Jun 2003%.

Hav (GD) S Gopal (1372428X now JC-307738Y), 01 Jun 2003%.

Hav (GD) N Mohan (1369064L now JC-307739F), 02 Jun 2003%.

Hav (GD) Anil Kumar VK (15305680A now JC-307740W), 02 Jun 2003%.

Hav (GD) MC Thankavelu (1369945K now JC-307741Y), 01 Jun 2003%.

Hav (GD) Rajan C (15309881W now JC-307742F), 23 Jun 2003%.

Hav (GD) S Velayudham (15305252F now JC-307743K), 02 Jun 2003%.

Hav (GD) Pius C (1372554K now JC-307744M), 01 Jun 2003%.

Hav (GD) Manoj PA (1376561X now JC-307745P), 01 Jun 2003%.

Hav (GD) George PD (1375975X now JC-307746X), 20 May 2003%.

Hav (GD) Kumar Laxaman (1373674P now JC-307747A), 06 Jun 2003%.

Hav (GD) Radhakrishnan TE (1374178A now JC-307748H), 02 Jun 2003%.

Hav (GD) Thomas TC (1373344W now JC-307750A), 02 Jun 2003%.

Hav (GD) A Selvaraj (1368618M now JC-307757K), 02 Jun 2003%.

Hav (GD) MN Nandagopal (1370028M now JC-307760K), 01 Jul 2003**.

Hav (GD) Thomas Bernad (1374276A now JC-307761M), 01 Jul 2003%.

Hav (GD) Vilas Kamble (1370005L now JC-307762P), 01 Jul 2003%.

Hav (GD) B Balasubramanyam (1370341X now JC-307763X), 01 Jul 2003%.

Hav (GD) George John (1370344L now JC-307764A), 02 Jul 2003%.

Hav (GD) M Sarangapani (1371004P now JC-307765H), 01 Jul 2003%.

Hav (GD) Rajappan N (1371207Y now JC-307766L), 01 Jul 2003%.

Hav (GD) G Mahendran (1371265H now JC-307767N), 03 Jul 2003&.

Hav (GD) K Thirunavukkarasu (1371554X now JC-307768W), 03 Jul 2003&&.

Hav (GD) S Sekar (1371890K now JC-307769Y), 02 Jul 2003&.

Hav (GD) Sweeto Francis (15313542N now JC-307774K), 14 Jul 2003\$\$.

Hav (GD) Premkumar Rai (15312488Y now JC-307775M), 14 Jul 2003&&.

Hav (GD) Shafiulla (1370166N now JC-307590L), 01 Nov 2002+.

Hav (GD) V Sekaran (1371551K now JC-307604A), 02 Dec 2002++.

Hav (GD) P Kathavarayan (1380948X now JC-307620X), 03 Dec 2002+++.

Hav (GD) Rajendrakumar C (1373064H now JC-307626Y), 01 Feb 2003***.

Hav (GD) Muraleedharan K (1376981X now JC-307325P), 01 Jul 2003@@@.

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2003 without effect on pay & allces).

@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Oct 2002 without effect on pay & allces).

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2003 without effect on pay & allces).

#(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2003 without effect on pay & allces).

##(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Sep 2002 without effect on pay & allces).

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2003 without effect on pay & allces).

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2003 without effect on pay & allces).

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2003 without effect on pay & allces).

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2002 without effect on pay & allces).

%%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2002 without effect on pay & allces).

\$\$ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2002 without effect on pay & allces).

&& (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 31 Jan 2003 without effect on pay & allces).

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2002 without effect on pay & allces).

++ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2002 without effect on pay & allces).

+++ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2002 without effect on pay & allces).

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2002 without effect on pay & allces).

@@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2001 without effect on pay & allces).

REGIONAL ENGINEER GROUP

[To be Nb Sub (GD)]

Hav Suresh Kumar (No 1463883L now JC-328852K), 26 May 2003*.

Hav Ramesh Chand Singh (No 1466900N now JC-328853M), 26 May 2003*.

Hav Birbal Singh (No 1464751M now JC-328854P), 26 May 2003*.

Hav Narinder Singh (No. 1463450W now JC-328855X), 27 May 2003*.

Hav Mithlesh Kumar Jha (No. 1464014L now JC-328856A), 28 May 2003*.

Hav Mahesh Singh (No. 1466201H now JC-328857H), 27 May 2003*.

Hav Ram Lakhan Singh (No. 1466215H now JC-328858L), 26 May 2003*.

Hav Krishna Kanta Borah (No. 1463493L now JC-328859N), 28 May 2003*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2003 without effect on pay & allces).

Hav Harish Singh (No. 1466290M now JC-328860H), 13 June 2003#.

Hav Shiv Singh (No. 1466391A now JC-328861L), 13 June 2003#.

Hav Dilawar Singh (No. 1466420K now JC-328862N), 14 June 2003#.

Hav Govind Prasad (No. 1466598A now JC-328863W), 13 June 2003#.

Hav Ranjit Singh (No. 1466670L now JC-328864Y), 13 June 2003#.

Hav Chander Singh (No. 1466672W now JC-328865F), 23 June 2003#.

Hav Surendra Prasad (No. 1463007H now JC-328866K), 09 June 2003#.

Hav Ganesh Prasad Jaiswal (No. 1467982N now JC-328867M), 14 June 2003#.

#(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allces).

[To be Nb Sub Clk (GD)]

Hav Krishna Kumar Yadav (No. 1470639W now JC-328868P), 10 June 2003\$.

Hav Mahesh Singh Shakya (No 1470652A now JC-328869X), 12 June 2003\$.

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allces).

To be Nb Sub/Svy

Hav Indrajit Choudhary (No 1475743N now JC-328870M), 18062003@.

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allces.)

To be Nb Sub (GD)

Hav Deo Datt Goswami (No 1467833A now JC-328826H), 19 Nov 2002*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces).

Hav Gurmeet Singh (No 14666025W now JC-328827L), 20 Mar 2003@.

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces).

Hav Balwinder Singh (No 1462929Y now JC-328828N), 22 May 2003#.

Hav Ajit Kumar Singh (No 1463640H now JC-328829W), 24 May 2003#.

Hav Bir Bahadur Singh (No 1464651F now JC-328830L), 23 May 2003#.

Hav Hum Bahadur Thapa (No 1403692P now JC-328813N), 23 May 2003#.

Hav Noren Chandra Baruah (No 1466293A now JC-328832W), 22 May 2003#.

Hav Tajwar Singh (No 1464074A now JC-328833Y), 01 June 2003#.

Hav Dalip Singh (No 1466117H now JC-328834F), 24 May 2003#.

Hav Govind Singh (No 1466147A now JC-328835K), 24 May 2003#.

Hav Inder Singh (No 1483396P now JC-328836M), 21 May 2003#.

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2003 without effect on pay and allces).

To be Nb Sub Ck (GD)

Hav Suresh Kumar Kaushik (No. 1470404K now JC-328837P), 09 Apr. 2003\$.

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces).

Hav Roshan Lal (No. 1470412H now JC-328838X), 26 Apr. 2003%.

Hav Om Pal Singh Chauhan (No. 1470495Y now JC-328839A), 16 Apr 2003%.

Hav Govind Singh Sountiyal (No. 1470513W now JC-328840P), 25 Apr 2003%.

Hav Radha Krishnan Nair CK (No. 1470534M now JC-328841X), 23 Apr 2003%.

%(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2003 without effect on pay and allces).

Hav Kamlesh Singh Yadav (No. 1470535P now JC-328842A), 15 May 2003&.

Hav Kalyan Shankar Mishra (No. 1470537A now JC-328843H), 09 May 2003&.

Hav Ram Nath (No. 1470553X now JC-328844L), 13 May 2003&.

Hav Chhatar Pal (No. 1470552P now JC-328845N), 19 May 2003&.

Hav Ram Singh Punia (No. 1470615M now JC-328846W), 09 May 2003&.

&(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2003 without effect on pay and allces).

Hav Rajendra Singh Bisht (No. 1470668L now JC-328847Y), 05 June 2003**.

Hav Kanhai Lal (No. 1470693K now JC-328848F), 05 June 2003**.

Hav Omkar Datt Sharma (No. 1470692F now JC-328849K), 09 June 2003**.

**(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allces).

To be NB Sub/Svy

Hav Surendra Singh (No. 1470999M now JC-328850Y), 23 Apr. 2003@.

Hav Rabindra Nath Singh (No. 1475181F now JC-328851F), 01 May 2003@.

@@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2003 without effect on pay and allces).

To be Nb Sub (GD)

Hav Pradeepan Nandukkandi (No. 1467966W now JC-328816Y), 27 Mar. 2003*.

Hav Pratap Singh (No. 1463700W now JC-328817F), 29 Mar. 2003*.

Hav Ravindra Nath Singh (No. 1464004F now JC-328818K), 25 Mar. 2003*.

Hav Manohar Singh (No. 1465094A now JC-328819M), 27 Mar. 2003*.

Hav Prem Singh (No. 1466115X now JC-328820F), 24 Mar. 2003*.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces).

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Dharam Pal Singh (No. 1470511L now JC-328821K),
16 Apr 2003\$.

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2003
without effect on pay and allces).

To be Nb Sub/Svy

Hav Shiwjee Singh (No. 1468433A now JC-328822M),
21032003&.

&(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2003
without effect on pay and allces).

Hav Prabh Nath Jha (No. 1472392Y now JC-328823P),
16042003@.

Hav Narender Pal (No. 1472754P now JC-328824X),
16042003@.

Hav Rajinder Singh (No. 1464785A now JC-328825A),
16042003@.

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2003
without effect on pay and allces).

BOMBAY ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Balkar Singh (No. 1553454N now JC-
349467N), 19th Jan 2003.

Hav (GD) Bhajan Singh (No. 1553763W now JC-
349468W), 20th Jan 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2003
without effect on pay and allowances).

Hav (GD) Bali Mohammad (No. 1553122K now JC-
349473F), 11th May 2003.

Hav (GD) Kallu Quarishi (No. 1553136K now JC-
349474K), 17th May 2003.

Hav (GD) Shivaji Pandurang Todkar (No. 1553409F now
JC-349475M), 17th May 2003.

Hav (GD) Jadhav Prakash Pandurang (No. 1554502P now
JC-349476P), 12th May 2003.

Hav (GD) Chavan Dattaji Govind (No. 1554838P now JC-
349477X), 17th May 2003.

Hav (GD) Umesh Chandra Tripathi (No. 1554849F now
JC-349478A), 12th May 2003.

Hav (GD) Noor Khan (No. 1554958N now JC-349479H),
10th May 2003.

Hav (GD) Usman Ansari (No. 1555345A now JC-
349480X), 12th May 2003.

Hav (GD) Pawar Gorakhnath Eknath (No. 15555697X now
JC-349481A), 19th May 2003.

Hav (GD) Jagir (No. 1566932L now JC-349482H), 10th
May 2003.

Hav (GD) Jagir Singh (No. 1567212W now JC-349483L),
19th May 2003.

Hav (GD) Mane Ashok Dattu (No. 1556844F now JC-
349484N), 19th May 2003:

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2003
without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav (Clk GD) Rup Lal (No. 1567165K now JC-349469Y),
13th May 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2003
without effect on pay and allowances).

Hav (Clk GD) Makhan Singh (No. 1552982L now JC-
349470N), 30th May 2003.

Hav (Clk GD) Surjit Singh (No. 1553623K now JC-
349471W), 13th May 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2003
without effect on pay and allowances).

Hav (Clk GD) Khem Singh (No. 1567556P now JC-
349472Y), 27th May 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2003
without effect on pay and allowances).

Hav (Clk GD) Harendra Singh (No. 1568486N now JC-
349485W), 05th Jun 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2003
without effect on pay and allowances).

Hav (Clk GD) Kuldip Singh (No. 1549378P now JC-
349440W), 22nd Mar 2003*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2002
without effect on pay and allowances).

Hav (Clk GD) Chavan Rajaram Hariba (No. 1570593N
now JC-349447A), 06th Feb 2003**

Hav (Clk GD) Pawar Shankar Laxman (No. 1570801X
now JC-349448H), 26th Feb 2003**.

Hav (Clk GD) K Suresh Kumar (No. 1570822N now JC-
349449L), 07th Mar 2003**.

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb
2003 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk GD) Harendar Singh (No. 1554182L now JC-
349452L), 28th Apr 2003@.

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar
2003 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk GD) Rakesh Kumar Tomar (No. 1568006Y now
JC-349456F), 30th Apr 2003@@.

Hav (Clk GD) Bhong Dilip Kumar Bajirao (No. 1555348N
now JC-349457K), 24th Apr 2003@@.

@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr
2003 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk GD) Rajarank Singh (No. 1569100P now JC-349464A), 15th May 2003**.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2003 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (SKT)

Hav (SKT) Kulip Singh (No. 1568469N now JC-349442F), 12th Mar 2003*.

Hav (SKT) Raghuvir Singh Yadav (No. 1567866A now JC-349443K), 24th Feb 2003*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21st Dec 2002 without effect on pay and allowances).

Hav (SKT) Hari Ballabh (No. 1570799L now JC-349444M), 22nd Mar 2003**.

Hav (SKT) Arda'kar Dastarath Ganpatrao (No. 1570810Y now JC-349445P), 01st Mar 2003**.

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2003 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Yogesh Watve (No. 15562189A now JC-349439F), 13th Mar 2003*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th Sep 2002 without effect on pay and allowances).

Hav (GD) Joginder Singh (No. 1552671X now JC-349441X), 26th Jan 2003**.

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 2002 without effect on pay and allowances).

Hav (GD) Kamlesh Kumar (No. 1554759A now JC-349446X), 14th Feb 2003@.

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2003 without effect on pay and allowances).

Hav (GD) Sadik Khan (No. 1557370X now JC-349450A), 27th Mar 2003@.

Hav (GD) Shubh Ram (No. 1555813P now JC-349451H), 03rd Apr 2003@.

@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Hav (GD) Ajaib Singh (No. 1552965L now JC-349453N), 18th Mar 2002£.

Hav (GD) Farakte Babasaheb Dnyanadev (No. 1553311N now JC-349454W), 17th Mar 2003£.

Hav (GD) Ram Chander Lal (No. 1553776N now JC-349455Y), 24th Apr 2003£.

£ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2003 without effect on pay and allowances).

Hav (GD) Shelar Narayan Gopal (No. 1553907N now JC-349458M), 22nd Apr 2003££.

Hav (GD) Rdeep Singh (No. 1554259H now JC-349459P), 04th May 2003££.

Hav (GD) Prem Singh (No. 1554310X now JC-349460K), 29th Apr 2003££.

Hav (GD) Hashin Raja Khan (No. 1554529M now JC-349461M), 06th May 2003££.

Hav (GD) Karale Malhari Maruti (No. 1554893L now JC-349462P), 27th Apr 2003££.

Hav (GD) Ram Dhyan Thakur (No. 1555143Y now JC-349463X), 22nd Apr 2003££.

££ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Apr 2003 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav (Clk GD) Unnikrishna Pillai KG (No. 1569848W now JC-349419N), 21st Feb 2003*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2003 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk GD) Wadudul Hai Khan (No. 1570590A now JC-349426K), 25th Feb 2003**.

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2003 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (SKT)

Hav (SKT) Bhabhishan Singh (No. 1572184Y now JC-349423W), 24th Feb 2003*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2003 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Pawar Shankar Raghunath (No. 1556843Y now JC-349418L), 06th Feb 2003*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Sep 2002 without effect on pay and allowances).

Hav (GD) Gurmail Singh (No. 1552094W now JC-349420H), 18th Dec 2002**.

Hav (GD) Ranjit Singh (No. 1557250Y now JC-349421L), 13th Dec 2002**.

Hav (GD) Rashid Khan (No. 1553732W now JC-349422N), 18th Dec 2002**.

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2002 without effect on pay and allowances).

Hav (GD) Balwant Singh (No. 1552589H now JC-349424Y), 10th Feb 2003@.

Hav (GD) Dhondiram Shivram Uttakar (No. 1557224X now JC-349425F), 14th Feb 2003@.

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2003 without effect on pay and allowances).

Hav (GD) Harbhajan Singh (No. 1552174N now JC-349427M), 13th Feb 2003£.

Hav (GD) Hasabe Janardhan Tukaram (No 1552270H now JC-349428P), 09th Feb 2003£.

Hav (GD) Kabal Singh (No 1551856M now JC-349429X), 15th Feb 2003£.

Hav (GD) Jeorge Lal (No 1554262H now JC-349430M), 18th Feb 2003£.

Hav (GD) Ganga Sagar (No 1554311A now JC-349431P), 21st Feb 2003£.

Hav (GD) Bharat Atmaram Yerunkar (No 1553534L now JC-349432X), 11th Feb 2003£.

Hav (GD) Mohammad Islam (No 1553536W now JC-349433A), 27th Feb 2003£.

Hav (GD) Allauddin (No 1555369K now JC-349434H), 18th Feb 2003£.

Hav (GD) Amar Singh (No 1557395K now JC-349435L), 15th Feb 2003£.

Hav (GD) Honde Nilkanth Banishidhar (No 1557411W now JC-349436N), 11th Feb 2003£.

Hav (GD) Ashin Khan (No 1557823X now JC-349437W), 08th Mar 2003£.

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Hav (GD) Radhey Singh (No 1552484Y now JC-349438Y), 10th Mar 2003@.

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Mar 2003 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav (Clk GD) R Naga Rajan (No 1568281Y now JC-349493P), 23rd Jun 2003.

Hav (Clk GD) Ravi Bhushan (No 1553229Y now JC-349494X), 07th Jul 2003.

Hav (Clk GD) Dushyant Kumar (No 1569229H now JC-349495A), 07th Jul 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jun 2003 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Ram Saran (No 1556337N now JC-349486Y), 06th Jun 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23rd Nov 2002 without effect on pay and allowances).

Hav (GD) Abdul Sattar (No 1555474A now JC-349487F), 12th May 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Apr 2003 without effect on pay and allowances).

Hav (GD) Pawar Rajendra Maruti (No 1555983Y now JC-349488K), 13th Jun 2003.

Hav (GD) Abdul Mazid Ansari (No 1551716A now JC-349489M), 18th Jun 2003.

Hav (GD) Din Mohammad (No 1553496A now JC-349490F), 26th Jun 2003.

Hav (GD) Raj Kumar Sharma (No 1556034Y now JC-349491K), 16th Jun 2003.

Hav (GD) Madane Ankush Namdeo (No 1556701F now JC-349492M), 14th Jun 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st May 2003 without effect on pay and allowances).

MADRAS ENGINEER GROUP

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub (GD) Dhakshna Moorthy (JC-97009L), 28th Apr 2003.

Sub (GD) CP Kariappa (JC-197061N), 01st Apr 2003.

Sub (GD) Shaik Abdulla Hydarlisha (JC-191243L), 24th May 2003.

To be substantive Sub (GD)

Nb Sub (GD) AV Phaneendrudu (JC-305633W), 01st May 2000.

Nb Sub (GD) R Sunder Raj (JC-306953X), 09th Apr 2003.

Nb Sub (GD) Neelakanta TK (JC-306484A), 01st Feb 2003.

Nb Sub (GD) Devan N (JC-306485H), 01st Feb 2003.

Nb Sub (GD) Dasari Venkaiah (JC-306486L), 01st Feb 2003.

Nb Sub (GD) H Standly Rozario (JC-306487N), 05th Feb 2003.

Nb Sub (GD) S Kamalasanan (JC-306488W), 01st Feb 2003.

Nb Sub (GD) R Arumai Selvam (JC-306534A), 03rd Feb 2003.

Nb Sub (GD) Marrapu Veera Venkata Ramana (JC-306564X), 01st Feb 2003.

Nb Sub (GD) Rajan Pillai (JC-306565A), 19th Feb 2003.

Nb Sub (GD) Gopal Sarawad (JC-306566H), 31st Mar 2003.

Nb Sub (GD) Rajendran P (JC-306848F), 07th Apr 2003.

Nb Sub (GD) M Velmurugan (JC-306568N), 24th Mar 2003.

Nb Sub (GD) G Eswara Reddy (JC-306569W), 11th Mar 2003.

Nb Sub (GD) Mariappan P (JC-306572N), 12th Mar 2003.

Nb Sub (GD) Udaya Kumar V (JC-306573Y), 10th Mar 2003.

Nb Sub (GD) Muthappa TN (JC-306575K), 11th Mar 2003.

Nb Sub (GD) Muthurakkan (JC-306586N), 01st Apr 2003.

Nb Sub (GD) O Murugesan (JC-306587Y), 01st Apr 2003.

Nb Sub (GD) Brahmanandam (JC-306590Y), 01st Apr 2003.

Nb Sub (GD) Deleep Kumar OC (JC-306591F), 01st Apr 2003.

Nb Sub (GD) V Venkateshwara Rao (JC-306592K), 01st Apr 2003.

Nb Sub (GD) Raveendran Nair B (JC-306593M), 02nd Apr 2003.

Nb Sub (GD) Narayanan Velutha Parambath (JC-306594P), 05th Apr 2003.

Nb Sub (GD) Premrajan Ezhuthupalli Peerambil (JC-306595X), 02nd Apr 2003.

Nb Sub (GD) R Sekar (JC-306596A), 01st Apr 2003.

Nb Sub (GD) Bhaskaran M (JC-306598L), 02nd Apr 2003.

Nb Sub (GD) Somappa Pattana Shetti (JC-306600K), 21st Apr 2003.

Nb Sub (GD) V Rajendran (JC-306602H), 01st Apr 2003.

Nb Sub (GD) Mohanan A (JC-306609M), 02nd Apr 2003.

Nb Sub (GD) V Kasi (JC-306610F), 17th Apr 2003.

Nb Sub (GD) K Rajagopal (JC-306612M), 09 Apr 2003.

Nb Sub (GD) Janardanan K (JC-306615A), 01st May 2003.

Nb Sub (GD) Kumar N (JC-306618N), 27th May 2003.

Nb Sub (GD) V Krishna (JC-306620L), 01st May 2003.

Nb Sub (GD) Kesavan M (JC-306628X), 01st May 2003.

Nb Sub (GD) Rajan K (JC-306629A), 01st May 2003.

Nb Sub (GD) Yasodharan KN (JC-306630P), 01st May 2003.

Nb Sub (GD) R Arunan (JC-306631X), 02nd Jun 2003.

Nb Sub (GD) Gnana Prakasam S (JC-306632A), 02nd Jun 2003.

Nb Sub (GD) Balachandran N (JC-306633H), 01st Jun 2003.

Nb Sub (GD) Gopal C (JC-306634H), 02nd Jun 2003.

Nb Sub (GD) Kalaiah CP (JC-306635N), 02nd Jun 2003.

Nb Sub (GD) Raja Gopalan E (JC-306637Y), 02nd Jun 2003.

Nb Sub (GD) Muddappa CT (JC-306638F), 30th Jun 2003.

Nb Sub (GD) A Nagappan (JC-306639K), 01st Jun 2003.

Nb Sub (GD) M Sukumaran (JC-306640Y), 12th Jun 2003.

Nb Sub (GD) Joseph TM (JC-306641F), 01st Jun 2003.

Nb Sub (GD) J Ethiraj (JC-306642K), 06th Jun 2003.

Nb Sub (GD) Shaik Subhani (JC-306644P), 01st Jun 2003.

Nb Sub (GD) Ashoka Kumar K (JC-306645X), 17th Jun 2003.

Nb Sub (GD) Radhakrishna Pillai K (JC-306646A), 01st Jul 2003.

Nb Sub (GD) Chandran A (JC-306647H), 01st Jul 2003.

Nb Sub (GD) C Nagaraj (JC-306648L), 01st Jul 2003.

Nb Sub (GD) T Parasuraman (JC-306675P), 01st Jul 2003.

Nb Sub (GD) Manoharan Nair PB (JC-306676X), 01st Jul 2003.

Nb Sub (GD) N Govindasamy (JC-306677A), 05st Jul 2003.

Nb Sub (GD) Herakal Virupakshappa (JC-306679L), 05th Jul 2003.

Nb Sub (GD) Ashoka Kumar KV (JC-306682L), 01st Jul 2003.

Nb Sub (GD) K Venkatesa Mudali (JC-306683N), 01st Jul 2003.

BOMBAY ENGINEER GROUP To be Subedar Major (Clk GD)

Sub (Clk GD) Jagdish Singh (JC-224993M), 04th Mar 2003.

Sub (Clk GD) Rameet Singh (JC-216155H), 04th Mar 2003.

Sub (Clk GD) Chintamani Ashok Muralidhar (JC-209645N), 20th Mar 2003.

Sub (Clk GD) Dattatray Mahadeo Sawant (JC-207920K), 03rd Feb 2003.

Sub (Clk GD) Harbans Singh (JC-209641X), 24th Mar 2003.

Sub (Clk GD) Ved Prakash (JC-209575A), 03rd Apr 2003.

Sub (Clk GD) Anand Singh Adhikari (JC-209651F), 12th Nov 2002.

Sub (Clk GD) Barinder Singh Chopra (JC-216116K), 11th Dec 2002.

Sub (Clk GD) Ajit Singh (JC-209640P), 15th May 2002.

Sub (Clk GD) Onkar Chand (JC-209657H), 02nd Jan 2003.

Sub (Clk GD) Balwan Singh Jaggi (JC-207919P), 03rd Mar 2003.

To be Subedar Major (SKT)

Sub (SKT) Randhir Singh (JC-224999N), 08th Jan 2003.

To be Subedar Major (GD)

Sub (GD) Sheo Prasad Sharma (JC-210828K), 03rd Feb 2003.

Sub (GD) Tarlok Singh (JC-207984P), 16th Dec 2002.

Sub (GD) Lamber Singh (JC-207945W), 01st Mar 2003.

Sub (GD) Ram Mehar Singh (JC-207944N), 23rd Jan 2003.

Sub (GD) Parale Yeshavant Ganapati SM (JC-209604K), 23rd Jan 2003.

To be Subedar (Clk GD)

Nb Sub (Clk GD) Rohtash Kumar Sharma (JC-348038A), 06th Feb 2003.

Nb Sub (Clk GD) Satish Kumar (JC-348041A), 13th Mar 2003.

Nb Sub (Clk GD) Ramesan Nair PS (JC-348000W), 27th Nov 2002.

Nb Sub (Clk GD) Nasruddin Khan (JC-347989L), 02nd Dec 2002.

Nb Sub (Clk GD) Banarsi Dass (JC-348125N), 13th Feb 2003.

Nb Sub (Clk GD) Baljit Singh (JC-348007A), 14th Jan 2003.

Nb Sub (Clk GD) Suresh Babu MG (JC-348019P), 21st Mar 2003.

Nb Sub (Clk GD) Roshan Lal Bakshi (JC-348018M), 21st Mar 2003.

Nb Sub (Clk GD) Patil Krishna Kundal (JC-347975L), 03rd Dec 2002.

Nb Sub (Clk GD) Subhash Chandra (JC-348043L), 17th Mar 2003.

Nb Sub (Clk GD) Gokal Ram (JC-347914N), 14th Feb 2003.

Nb Sub (Clk GD) Onkar Dass (JC-348026L), 17th Mar 2003.

To be Subedar (SKT)

Nb Sub (SKT) Suresh Kumar (JC-348202X), 19th Jan 2003.

Nb Sub (SKT) Virender Singh (JC-348204H), 19th Jan 2003.

Nb Sub (SKT) Pravin Kumar Sharma (JC-348165P), 30th Jan 2003.

To be Subedar (GD)

Nb Sub (GD) Vimal Singh Karki (JC-348185H), 02nd Jan 2003.

Nb Sub (GD) Karat Balu Krishna (JC-348411P), 22nd Jan 2003.

Nb Sub (GD) Baburao Maruti Chavan (JC-348127Y), 26th Nov 2002.

Nb Sub (GD) Chavan Sukhadeo Ishwara (JC-348273Y), 06th Feb 2003.

Nb Sub (GD) Balwinder Singh (JC-348467F), 18th Feb 2003.

Nb Sub (GD) Mahrani Din (JC-348388M), 27th Dec 2002.

Nb Sub (GD) Ratan Lal Kumbhar (JC-348439P), 15th Feb 2003.

Nb Sub (GD) Kailashnath Bhardwaj (JC-348400H), 25th Jan 2003.

Nb Sub (GD) Balvinder Singh (JC-348428H), 14th Feb 2003.

Nb Sub (GD) Samkewal Maurya (JC-348367W), 19th Dec 2002.

Nb Sub (GD) Taiyav Khan (JC-348365L), 05th Dec 2002.

Nb Sub (GD) Puran Singh (JC-348387K), 03rd Jan 2003.

Nb Sub (GD) Gurmit Singh (JC-348403W), 05th Feb 2003.

Nb Sub (GD) Jasvir Singh (JC-348405F), 27th Jan 2003.

Nb Sub (GD) Balkar Singh (JC-348459H), 21st Feb 2003.

Nb Sub (GD) Mukhtiar Singh (JC-348392P), 16th Dec 2002.

Nb Sub (GD) Gurdip Singh (JC-348413A), 15th Feb 2003.

Nb Sub (GD) Jagmohan Singh (JC-348311K), 16th Dec 2002.

Nb Sub (GD) Sarwar Ali Khan (JC-348347H), 01st Dec 2002.

Nb Sub (GD) Sheo Shankar Prasad (JC-348407M), 23rd Jan 2003.

Nb Sub (GD) Govind Prasad Pathak (JC-348431H), 24th Jan 2003.

Nb Sub (GD) Vishwarup Singh (JC-348479W), 30th Dec 2002.

Nb Sub (GD) Arjun Ram (JC-348450N), 15th Feb 2003.

Nb Sub (GD) Gurdip Singh (JC-348425P), 26th Dec 2002.

Nb Sub (GD) Krishna Nand (JC-348263P), 26th Dec 2002.

Nb Sub (GD) Mohd Aslam Khan (JC-348395H), 27th Dec 2002.

Nb Sub (GD) Horilal (JC-348406K), 24th Jan 2003.

Nb Sub (GD) Lakhwinder Singh (JC-348458A), 18th Feb 2003.

Nb Sub (GD) Yogeshwar Tripathi (JC-348440K), 02nd Feb 2003.

Nb Sub (GD) Bakhshish Singh (JC-348344P), 10th Dec 2002.

Nb Sub (GD) Harinder Kumar Giri (JC-348422F), 04th Dec 2002.

Nb Sub (GD) Satnam Singh (JC-348402N), 27th Jan 2003.

Nb Sub (GD) Karnail Singh (JC-348423K), 19th Dec 2002.

Nb Sub (GD) Sutar Bhagwan Namdeo (JC-348478N), 17th Jan 2003.

Nb Sub (GD) Deepak Kumar Thapa (JC-348023X), 27th Dec 2002.

Nb Sub (GD) Rajbir (JC-348312M), 12th Dec 2002.

Nb Sub (GD) Matbar Singh (JC-348442P), 06th Feb 2003.

Nb Sub (GD) Jagtap Dinkar Shivaji (JC-348378H), 23rd Dec 2002.

Nb Sub (GD) Chandrapal Singh (JC-348429L), 27th Jan 2003.

Nb Sub (GD) Gajjan Singh (JC-348409X), 16th Jan 2003.

Nb Sub (GD) Ajai Singh (JC-348414H), 10th Feb 2003.

Nb Sub (GD) Triveni Rai (JC-348421Y), 21st Dec 2002.

Nb Sub (GD) Uma Shankar Maurya (JC-348376X), 30th Dec 2002.

Nb Sub (GD) Surjit Singh (JC-348401L), 16th Jan 2003.

Nb Sub (GD) Ram S Sharma (JC-348408P), 16th Jan 2003.

Nb Sub (GD) Mangal Singh (JC-348415L), 16th Jan 2003.

To be Subedar Major Clk (GD)

Sub (Clk GD) Solanki Parsotam Kanji (JC-203115H), 23rd Oct 2000.

Sub (Clk GD) Sarup Singh (JC-203125M), 15th Nov 2000.

Sub (Clk GD) Puni Lal (JC-203119Y), 23rd Oct 2000.

Sub (Clk GD) Sukhmander Singh (JC-203116L), 10th Nov 2000.

Sub (Clk GD) Niazuddin (JC-203011F), 7th Nov 2000.

Sub (Clk GD) Gurdarshan Singh (JC-203015X), 1st Nov 2000.

To be Subedar Major (GD)

Sub (GD) Shahaji Waghmode (JC-186325K), 20th May 2000.

Sub (GD) Gurnam Singh Bhatoya (JC-182598P), 2nd Aug 2000.

Sub (GD) Dilbag Singh (JC-186335N), 5th Aug 2000.

Sub (GD) Thukaram Laxman Nikam (JC-191663L), 9th Aug 2000.

Sub (GD) Ajit Lakra (JC-203062P), 1st Nov 2000.

Sub (GD) Gajender Singh (JC-191667F), 27th Nov 2000.

Sub (GD) Phad Padmakar Bhimrao (JC-197262M), 23rd Nov 2000.

Sub (GD) Bant Singh (JC-197268N), 22nd Nov 2000.

Sub (GD) Mast Ram (JC-191629L), 19th Dec 2000.

To be Subedar (GD)

Nb Sub (GD) Shoukat Ali (JC-347022H), 26th Aug 2000.

Nb Sub (GD) Ajit Singh (JC-347800H), 17th Aug 2000.

Nb Sub (GD) Gurbachan Singh (JC-347711K), 30th Sep 2000.

Nb Sub (GD) Mehar Singh (JC-347718N), 16th Nov 2000.

Nb Sub (GD) Ramdas (JC-347720L), 9th Nov 2000.

Nb Sub (GD) Gursewak Singh (JC-347771Y), 14th Nov 2000.

Nb Sub (GD) Kapil Dev Dubey (JC-347790K), 29th Nov 2000.

Nb Sub (GD) Raghubir Singh (JC-347802N), 2nd Dec 2000.

Nb Sub (GD) Salwinder Singh (JC-347531F), 1st Dec 2000.

Nb Sub (GD) Nimbalkar Mahadeo Jagannath (JC-347716H), 18th Dec 2000.

To be Subedar Clk (GD)

Nb Sub (Clk GD) Gurmail Singh (JC-347613K), 13th Sep 2000.

Nb Sub (Clk GD) Ram Asare Pal (JC-347614M), 8th Nov 2000.

Nb Sub (Clk GD) Bhagwan Singh (JC-347668N), 9th Dec 2000.

Nb Sub (Clk GD) Jasmail Singh (JC-347637N), 9th Nov 2000.

Nb Sub (Clk GD) Shamsheer Singh (JC-347618H), 2nd Nov 2000.

Nb Sub (Clk GD) Satwinder Singh (JC-347646P), 6th Nov 2000.

Nb Sub (Clk GD) Gurpal Singh (JC-347639Y), 6th Nov 2000.

Nb Sub (Clk GD) Raghvir Singh (JC-347619L), 24th Nov 2000.

Nb Sub (Clk GD) Jamuna Prasad (JC-347642Y), 20th Nov 2000.

Nb Sub (Clk GD) Dhian Singh (JC-347641W), 11th Dec 2000.

Nb Sub (Clk GD) Jamal Deen (JC-347620A), 8th Dec 2000.

Nb Sub (Clk GD) Deb Singh (JC-347647X), 14th Dec 2000.

To be Subedar Major (SKT)

Sub (SKT) Ranjit Singh (JC-216113W), 21st Nov 2000.

B P SHARMA,
Dy. Secy.

No 656, dated 15th October 2003—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY
SPECIAL LIST
JAK RIF**

To be Substantive Sub Major (Religious Teacher)

Sub (Pandit) G R Sharma (JC-87472K), 03rd Jan 2003*.

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allowances wef 01st Jan 2003.)

Sub (Pandit) D R Gautam (JC-87199A), 04th Feb 2003*.

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allowances wef 01st Feb 2003.)

To be Substantive Sub (Religious Teacher)

Nb Sub (Pandit) Yugal Kishore Khajuria (JC-224159N),
01st Mar 2002.

Nb Sub (Pandit) Puran Chandra Lekhak (JC-578006W),
01st Nov 2002.

THE SIKH LI

To be Naib Subedar (Religious Teacher)

Jaswinder Singh (JC-508750W), 16 Jun 2001.

Jagjit Singh (JC-508887H), 30 Nov 2002.

SPECIAL LIST

THE PARACHUTE REGIMENT

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Tarkeshwar Mishra (JC-412614H), 16 Jun 2001.

SPECIAL LIST

THE DOGRA REGIMENT

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Lharatjee Dwivedi (JC-519457Y), 30th Nov 2002.

Mohan Nath Tiwari (JC-519458F), 30th Nov 2002.

The Jat Regt

To be Nb (Religious Teacher)

Prabhakar Mishra (JC-489272A), 30th Nov 2002.

DIWAKAR,
Under Secy.

AIR HEADQUARTERS

No. 657, dated 14th October 2003—The President is pleased to promote Sh. R. N. Pandey, Asstt Dir (OL) (Group 'B' Gazetted) of AFHQ/ISOs as Dy Dir (OL), (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 10000-15200, on ad-hoc basis with effect from 06 Jun 2003 (FN) for a period upto 27 Nov 2003 or till availability of persons from select list, whichever is earlier.

The promotion shall be subjected to the following conditions:—

(a) His promotion is purely on temporary basis and shall be terminated on administrative ground without issuing any prior notice to that effect.

(b) The officer shall have no claim for regular promotion/appointment on the basis of ad-hoc promotion granted now nor will his period of such appointment count towards seniority in the grade of Dy Dir (OL).

SANTOSH DASGUPTA
Dy Chief Administrative Officer

No 658, dated 20th October 2003—The President is pleased to make the following substantantive promotions:—

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING BRANCH

To be Substantive GP Capt (AE Branch)

V K Sharma (10670) AE (L), 17 Feb 1998.

R K Dharmani (13490) AE (L) 21 Sept 1998/17 Feb 1998 (NS).

R Padmanabhan (13475) AE (L) 17 Feb 1998.

R P Sinha (13484) AE (M) 04 May 1998.

S S R Gunashekhar (13487) AE (M) 04 May 1998.

V K Tiwari (13198) AE (L) 04 May 1998.

V K Saxena (13278) AE (L) 04 May 1998.

S R Gopalakrishnan (13464) AE (L) 04 May 1998.

K K Goel (13535) AE (L) 04 May 1998.

J Arunachalam (13725) AE (L), 04 May 1998.

Joseph Neri (13711) AE (L) 04 May 1998.

S C Gaur (14118) AE (M) 04 May 1998.

H P S Nanda (13726) AE (L) 04 May 1998.

A S Chaggar (P/R-30.11.99), (13729) AE (M) 04 May 1998.

P P Gunda (13705) AE (L) 04 May 1998.

S K Puri (13716) AE (L) 04 May 1998.

B K Murali (13728) AE (M) 04 May 1998.

N A Prabhu (13706) AE (L), 21 Sep 1998/01 Jun 1998 (NS).

R K Vashist (13832) AE (M) 01 Jun 1998.

S C Paul (13844) AE (M) 21 Sep 1998.

P S Pruthi (13820) AE (L) 12 Oct 1998.

Praveen Khanna (13833) AE (M) 22 Oct 1998.

P Basu (13828) AE (L) 01 Feb 1999.

R Dorairaj (13469) AE (L) 19 Apr 1999.

S P Pagay (12099) AE (L) 01 Jan 2000.

R K Kapoor (12452) AE (L) 01 Jan 2000.

Rishi Chand (13175) AE (M) 01 Jan 2000.

M K Labroo (13731) AE (M) 01 Sep 2000.

USHA NEELAKANDAN

Asstt. Director of Personnel (Officers)-2(B)

No. 659, dated 17 Oct 2003—The President is pleased to make the following Substantive Promotion :—

INDIAN AIR FORCE

Fg Officer to be Substantive Flt Lt
AE(M) Branch

PR Pothi (25438) wef 27 Dec 2001.

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr
F(P) Branch

Augustine MJV (21819) wef 13 June 2002.

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr
F(N) Branch

Singh AK (21985) wef 13 June 2002.

Chaudhary RR (22581), Kumar R (22582), Arunachalam T (22585), Phatak Milind Yeshwant (22588), Manish Jha (22589), Sanjay Verma 922591), Singhal MK (22592), Chauhan RPS (22593), Gaur Surender Pal (22595), Vasan MS (22597), Sareen Vikas (22598), Kukreti V (22599), 21 June 2003.

S SRIVASTAV

Sqn Ldr

DDPO 3 (D)